



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27—मार्च 4, 2016 (फाल्गुन 8, 1937)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27—MARCH 4, 2016 (PHALGUNA 8, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 फरवरी 2016

सं. ओ.दो. 7473/2016—कार्मिक.डी.ए.-4.—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री विमल चन्द्र, उप कमाण्डेन्ट (इरला-7473), 97 बटालियन, केरिपुबल, अवाडी (तमिलनाडू) ने दिनांक 31/01/2016 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31/01/2016 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

ए.वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 8 फरवरी 2016

संख्या—आर.दो. 1/2016—कार्मिक (चि0अ0)—राष्ट्रपति जी, एम0ओ0एस0बी0 2014 के तहत चयनित डॉ0 अजीत कुमार दिवाकर, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100/— के वेतनमान (साथ में रु. 6,600/—ग्रेड वेतन) में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (नेत्र चिकित्सा)/(उप कमाण्डेंट) के पद पर बल की नफरी में दिनांक 07.07.2015 (पूर्वाहन) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभय वीर चौहान
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या—आर.दो.1/2016—कार्मिक (एम0ओज0)—राष्ट्रपति जी एम0ओ0एस0बी0 2014 के तहत चयनित निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/— साथ में रु. 5400/—ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से उनके समक्ष दर्शाई गई तिथि से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम संख्या	नाम तथा इरला सं.	कार्यग्रहण की तिथि	वर्तमान तैनाती
01	डॉ0 लक्ष्मी दरला (10589)	18/06/15(पूर्वा0)	सीएच बंगलोर
02	डॉ0 अनिल कुमार श्रीरामोजु (10591)	20/06/15(पूर्वा0)	208 कोबरा
03	डॉ0 अर्चना रेड्डी पुरुमांडला (10585)	27/06/15(पूर्वा0)	जीसी अमेठी
04	डॉ0 सत्याकी मोंडल (10586)	30/06/15(अप0)	169 बटालियन
05	डॉ0 देबासीश बसुनिया (10587)	01/07/15(अप0)	207 कोबरा
06.	डॉ0 शशांक मिश्रा (10616)	04/07/15(पूर्वा0)	221 बटालियन
07	डॉ0 संजीव कुमार चौधरी (10611)	06/07/15(पूर्वा0)	205 कोबरा
08	डॉ0 विजय अभिक्या दासी (10598)	06/07/15(पूर्वा0)	129 बटालियन
09	डॉ0 वेंकटा अविनाश के (10596)	06/07/15(पूर्वा0)	231 बटालियन
10	डॉ0 वेंकटा किरण एस (10595)	06/07/15(पूर्वा0)	201 कोबरा
11	डॉ0 रिगालागड्डा आदिनारायणा (10603)	06/07/15(पूर्वा0)	30 बटालियन
12	डॉ0 मोहनराजू पिन्नेबोयना (10610)	06/07/15(पूर्वा0)	जीसी 2 अजमेर
13	डॉ0 इंदिरा पिन्नेबोयना (10606)	06/07/15(पूर्वा0)	सीएच हैदराबाद
14	डॉ0 कुरुआ मनासा (10607)	06/07/15(पूर्वा0)	सीएच हैदराबाद
15	डॉ0 एदारा ग्रिश्मा तेजस्वी (10609)	07/07/15(पूर्वा0)	232 बटालियन
16	डॉ0 मोनिशा एम (10618)	08/07/15(पूर्वा0)	71 बटालियन
17	डॉ0 डी0 नगा मल्लेश्वरा राव एस (10620)	08/07/15(पूर्वा0)	51 बटालियन
18	डॉ0 मुथ्यम सम्पथ कुमार (10619)	08/07/15(पूर्वा0)	121 बटालियन
19	डॉ0 राम कृष्णा मिश्रा (10602)	08/07/15(पूर्वा0)	जीसी रायपुर
20	डॉ0 एम0 उदय कुमार (10608)	08/07/15(पूर्वा0)	171 बटालियन

क्रम संख्या	नाम तथा इरला सं.	कार्यग्रहण की तिथि	वर्तमान तैनाती
21	डॉ० राठौर सुरेश भिकु (10592)	09/07/15(पूर्वा०)	01 बटालियन
22	डॉ० भोसले चेतन कुमार आत्माराम (10594)	09/07/15(पूर्वा०)	126 बटालियन
23	डॉ० विजय प्रशांत राव जी (10599)	09/07/15(पूर्वा०)	147 बटालियन
24	डॉ० सुभाष कुमार सुमन (10614)	09/07/15(पूर्वा०)	209 कोबरा
25	डॉ० जगनमोहनराव बोडेपल्ली (10604)	10/07/15(पूर्वा०)	230 बटालियन
26	डॉ० सुरेन्द्र पलाकुरी (10600)	10/07/15(पूर्वा०)	149 बटालियन
27	डॉ० वडीपती वीएस चैतन्या (10605)	10/07/15(पूर्वा०)	227 बटालियन
28	डॉ० एम०वी० चारी (10712)	31/08/15(पूर्वा०)	174 बटालियन

अभय वीर चौहान
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 10 फरवरी 2016

सं. ई-33013(1)/तकनीकी त्यागपत्र-3/पीएस/2015/कार्मिक.1/84—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा-2014 के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री प्रदीप सिंह, उप कमान्डेंट/लोकल रैंक, के०सुब इकाई एनटीपीसी दिबियापुर का के०सुब की सेवा से तकनीकी त्याग-पत्र दिनांक 06.02.2016 (पूर्वाह्न) से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/के०सुब

सं. ई-16014/आईबी/68(01)/2014/कार्मिक-2/160—खुफिया विभाग, गृह मंत्रालय में डिप्टी केंद्रीय खुफिया अधिकारी(कार्य) में प्रतिनियुक्ति आधार पर 03 (तीन) वर्ष के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप, के०सुब के निम्नलिखित सहायक कमान्डेंट द्वारा उनके नाम के सामने दी गई तारीख व इकाई से पदभार छोड़ा व खुफिया विभाग में पदभार ग्रहण कर लिया गया है :-

अधिकारी का नाम/पद (श्री)	के०सुब इकाई का नाम व पदभार छोड़ने की तिथि	खुफिया विभाग में पदभार ग्रहण
अरुण कुमार शर्मा, स.क./कार्य	20/11/15 (अपराह्न) के०सुब इकाई, पीएण्डएचसीएच चंडीगढ़	07/12/15(पूर्वा०) डिप्टी केंद्रीय खुफिया अधिकारी(कार्य), एसआईबी जम्मू

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/के०सुब

सं.ई-16013/आरआरबी-एडीजी/2015/कार्मिक-2/168—स्वापक नियंत्रण ब्यूरो(एनसीबी) में महानिदेशक के पद में वेतन रु. 67,000—79,000/— (एचएसी) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप, श्री राजीव राय भटनागर, भा०पु०से० (उ०प्र० 1983), ने दिनांक 10/02/2016 (पूर्वाह्न) को अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्या०), के०सुब, मुख्यालय नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/के०सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान
जयपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

सं. प्रशा.—II/गजट नोटिफिकेशन/आर—12063/122/2014/डी—554—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं :—

- | | |
|--|---|
| 1. श्री सुरेश चन्द शर्मा— II
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.01.2016 (अपराहन) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त |
| 2. श्री जेतु सिंह भाटी
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.01.2016 (अपराहन) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त |

ह./— अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम, दिनांक 10 फरवरी 2016

सं. ओई/ई एवं सी/ईआईवी/पी/15—16—

नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
श्रीमती शोभा के एम	लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, तृश्शूर	31.01.2016 अपराहन (अधिवर्षिता)

ह./— अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई—85, दिनांक 10 फरवरी 2016

सं. पीडी/33(1)/2014/आर—V/1762—राष्ट्रपति, तकनीकी अधिकारी 'बी' पीबी रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/— में कार्यरत भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित पदाधिकारियों को तकनीकी अधिकारी 'सी' पीबी—3 रु. 15,600—39,100/— + ग्रेड वेतन रु. 5,400/— के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1 जुलाई, 2015 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	पदाधिकारियों के नाम (डॉ./श्री/श्रीमती/कु)
1.	नंदन कुमार
2.	के. के. गौर
3.	जितेन्द्र कुमार
4.	दुबला राजेंद्र
5.	एस. पी. लोहार
6.	माधवी ए. चव्हाण
7.	पल्लवी खंदारे
8.	रामलिंगम के.

एम. वी. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

शुद्धि पत्र

सं. पीडी/7(23)/2015/भर्ती-IV/एसओ(एफ)/22374—क्रमांक पीडी/7(23)/2015/भर्ती-IV/एसओ(एफ)/14593 दिनांक दिसंबर 14, 2015 को जारी की गयी अधिसूचना के संदर्भ में।

उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 81, कालम संख्या 2 में दर्शाये गये श्री पील्लै जी. राजशेखरन के नाम को सुधारकर श्री पील्लै जी. राजशेखरन के बदले श्री पील्लै जी. राजशेखरन के अनुसार पढ़ा जाए।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(22)/2015/भर्ती-IV/एसओ(जी)/22375—क्रमांक पीडी/7(22)/2015/भर्ती-IV/एसओ(जी)/151 दिनांक जनवरी 05, 2016 को जारी की गयी अधिसूचना के संदर्भ में।

उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 67, कालम संख्या 5 में दर्शाये गये श्री विकास जैन के कर्मचारी संख्या को 19610 के बदले 19538 पढ़ा जाए।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-85, दिनांक 11 फरवरी 2016

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III(खंड.II)/2016/1811—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती मंगला आर. पिल्लै, आशुलिपिक श्रेणी-I, को दिनांक 21.12.2015 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में नीजि सचिव (गैर-सचिवलयीन) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III(खंड.II)/2016/1812—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती लीला मोहनन, आशुलिपिक श्रेणी-I, को दिनांक 01.01.2016 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में नीजि सचिव (गैर-सचिवलयीन) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III(खंड.II)/2016/1813—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती सुधा बी. उध्यावरा, आशुलिपिक श्रेणी-I, को दिनांक 18.12.2015 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में नीजि सचिव (गैर-सचिवलयीन) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III(खंड.II)/2016/1814—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री राजेंद्र सिद्राम हलीप्याटी, आशुलिपिक श्रेणी-I, को दिनांक 18.12.2015 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में नीजि सचिव (गैर-सचिवलयीन) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 11 फरवरी 2016

सं. 26/1/2015—सीसीएस/2013—राष्ट्रपति, इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुंबई के वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पीबी-3 रु. 15,600—39,100/— + ग्रेड वेतन रु. 5,400/—) श्री एल्ले कृष्णा को दिनांक 02.12.2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में उप लेखा नियंत्रक (पीबी-3 रु. 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6,600/—) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

नवी मुंबई-400 703, दिनांक 9 फरवरी 2016

सं. ब्रिट/सामान्य/9/43/2013/57—विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्रीमती अथिना कूडतिलमेपूरथ जोस, सहायक (रु. 9,300—34,800/— के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/—) को दिनांक 02.12.2015 के पूर्वाह्न से 15.01.2016 के अपराह्न तक इसी एकक में रु. 9,300—34,800/— के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/— में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. रामकृष्णन्
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मुंबई-400001, दिनांक 15 फरवरी 2016

सं. 9/1/2015—पावर/15099—राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 01.07.2015 से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने दर्शाये गए ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	इकाई
1.	अब्दुल हनन	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-इ	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-एफ	पीबी-4 37,400—67,000/—	8,700/—	एनपीसीआईएल मुख्यालय

2. उपरोक्त अधिकारी ने दिनांक 01.07.2015 (पूर्वाह्न) से अपने निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400 094, दिनांक 5 फरवरी 2016

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)—तालचेर/2016/704—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री नितिन शेंडे, सहायक (पीबी - 2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,600/—), भापअकें, मुंबई को दिनांक 10.12.2015 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड - 2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/— में भारी पानी संयंत्र (तालचेर) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)—कोटा/2016/720—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती हेमांगी अविनाश सिंह, सहायक (पीबी-2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,600/—), एनआरबी, तारापुर को दिनांक 29.12.2015 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड - 2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/— में भारी पानी संयंत्र (कोटा) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)—के.का/2016/725—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी कुमारी स्वाती प्र. मेस्त्री, सहायक लेखाकार (पीबी-2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,600/—), भापअकें, मुंबई को दिनांक. 21.01.2016 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड — 2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/— में भारी पानी बोर्ड, मुंबई में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली—110003 दिनांक 3 फरवरी 2016

सं. ए-32013/11/2014—स्था.—II संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर और निदेशक, उड़नयोग्यता के पद पर उनकी प्रोन्नति होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति उड़नयोग्यता के निम्नलिखित उप निदेशकों की नियुक्ति वेतन बैंड—4, 37,400—67,000/— रुपये तथा ग्रेड वेतन 8,700/— रुपये के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से और अगले आदेशों के होने तक नागर विमानन महानिदेशालय में नियमित आधार पर निदेशक उड़नयोग्यता के पद पर करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	प्रोन्नति की तारीख
1.	जे.सी. शर्मा	03.11.2015 (पूर्वाह्न)
2.	पी. पथमनाथन	03.11.2015 (पूर्वाह्न)
3.	पवन कुमार	03.11.2015 (पूर्वाह्न)
4.	लक्ष्मी नारायण	04.11.2015 (अप)
5.	के.के. मजुमदार	18.01.2016 (पूर्वाह्न)
6.	तुहीनांशु शर्मा	03.11.2015 (पूर्वाह्न)
7.	पी.के. भक्त	03.11.2015 (अप)

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार.)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 9 फरवरी 2016

No. LC/560(3)/ 583—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इस नोटिस के एक महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी :—

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	पी के बजाज इण्टर प्राइसेस (वाराणसी) प्राइवेट लिमिटेड	U70109UP1998PTC023737	C67463224
2	ब्रुज सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055181	C72278138
3	श्रीबागलामुखी इन्फ्राडेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC055525	C73740854
4	प्रभूकृपा कमोडिटीस एण्ड डेरिवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2008PTC034626	C73825408

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
5	सीजे आनलाइन एडी वर्ड प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2015PTC068489	C73826331
6	जैस मीडिया वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U22300UP2014PTC063102	C73827214
7	आराध्या इन्फ्राहोम्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC058123	C73863045
8	पलक इन्फार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2014PTC065956	C73968190
9	टीएसएमवी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC058760	C73973711
10	एएमएन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051562	C73958555
11	ग्रैंड पीक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2013PTC058067	C74014309
12	प्राइमरा फूड्स एण्ड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2013PTC058068	C74011123
13	इन्थरान सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC038495	C74013996
14	एएमए इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1993PTC015550	C74017252
15	अधिराज डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056264	C74178245
16	अधिरान्शु डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056300	C74213612
17	अचलपति डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056200	C74216391
18	आत्मघोष डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055283	C74231655
19	आलेख डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055064	C74233974
20	टीआरएस रियल स्टेट इण्डिया लिमिटेड	U45400UP2010PLC039578	C74237728
21	अचार डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056202	C74228628
22	असशारयालय डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055556	C74248097
23	अबोध डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056193	C74214578
24	आहलाद डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054625	C74215203
25	अमलेश डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056356	C74227893
26	गोल्डेन फ्लाइट सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2011PTC047975	C74331844
27	अचीर डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056203	C74332362
28	अचिन्तय डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056201	C74332818
29	आशमन डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056009	C74336447
30	अभिन्य डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056012	C74339433
31	जिन्दास फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2002PTC026920	C74303827
32	वेदास शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15424UP1996PTC019721	C74359373
33	अभीक डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055853	C74368440

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
34	अभिनिवेश डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056016	C74369372
35	आकाशधिय डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055075	C74419763
36	आलाप डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055059	C74422775
37	ई एप्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U25206UP1989PTC010709	C74430687
38	एग्यूटा डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056199	C74455395
39	सुजल इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2013PTC061259	C74461898
40	एडविक ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049676	C74476730
41	आईपीसीआई फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2011PTC045179	C74491747
42	टीएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202UP2013PTC060704	C74608241
43	स्काईवे डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC059356	C74677634
44	कानोडिया शेयर एण्ड सिक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2000PTC025401	C74679283
45	स्वदेशी इडिबिल आयल प्राइवेट लिमिटेड	U15419UP2006PTC031644	C74791971
46	श्रीएम्लीयूनिमैक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2013PTC061282	C74561952
47	यू एण्ड होम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17291UP2011PTC047989	C74852666
48	राघामोहन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046829	C74900432
49	कैम्फर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC055795	C74909441
50	अक्क्षरध्यान डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056402	C74917824
51	आलीम डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055061	C74917394
52	आकाशदीप डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054636	C74927377
53	आराध्या डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055062	C74941840
54	निरमल फिनसेक कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2012PTC050310	C74775354
55	आर्या डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055057	C74923541
56	नेचर लाइफ इन्फ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062047	C75047944
57	नेचर लाइफ इन्फ्रासेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062036	C75048652
58	नेचर लाइफ इन्फ्रावेन्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062037	C75048777
59	नेचर लाइफ इन्फ्रावीजन प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062038	C75048850
60	रैडेल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2012PTC061382	C75072413
61	शक्ती एजूकेशनल ट्रेनिंग मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2011PTC046542	C75100834
62	रिचेरी क्रियेशन मीडिया एण्ड इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC040444	C75129015

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
63	फार्माबाइट सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2014PTC061695	C75120170
64	भागीरथी आटो इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1982PTC005897	C75159822
65	संच मैनुपावर सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC045129	C75205294
66	सेक्रेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC045635	C75289124
67	जैसविक फाइनेंसियल सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PTC040576	C75230698
68	निधिवन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2009PTC039084	C75361410
69	घानन्द फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15400UP2014PTC061875	C75459636
70	फर्स्ट डसमिनियन प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC052029	C75471292
71	रान कविन परवर प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2013PTC055052	C75477620
72	चेंज लाइफ रियल स्टेट एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC048158	C75494260
73	रिमाइंड ट्रेनिंग एण्ड कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2010PTC042788	C75533638
74	अभ्यास डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056019	C75556209
75	आशीशवर्धन डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055557	C75557074
76	अभिनन्दन डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055949	C75558742
77	अभियुदयावन डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056029	C75559237
78	आदिनाथ डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054583	C75560193
79	अभू डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056017	C75563759
80	अभियोग डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055988	C75564559
81	अबबास डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055195	C75581918
82	रिखरित फाइनेंसियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2011PTC043851	C75586412
83	आलम डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055060	C75587865
84	टेक्वीजन साफ्टवेयरस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2009PTC039019	C75719336
85	आइडियलटीम बिजनेस साफ्टवेयर टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2014PTC064500	C75707752
86	अवघ इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC056385	C75787242
87	कान्स्ताबुलड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC058128	C75823450
88	रीमा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U19201UP1986PTC007888	C75842138
89	एम एस वी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24100UP2014PTC062710	C75893982
90	एम स्क्वायर कोलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड	U45202UP2013PTC060717	C75907733
91	टीस इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U45202UP2013PTC060832	C75919613

SI No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
92	रीजेंट इन्फ्राकान्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055793	C75947440
93	विशाल आइडेंटिटी एण्ड कन्स्यूमर अवेयरनेस कार्ड प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC038715	C75966564
94	थंकरजीत सिस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC059320	C75999243
95	खुशबू इन्वेस्टमेंट एण्ड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1993PTC015702	C76205251
96	ओजोन एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U29253UP2014PTC065294	C76263474
97	सवित्रीश्री बायो आरगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056704	C76314897
98	क्लैरस टेक्नोलाजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC058886	C76326297
99	शुभम क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	U27109UP2007PTC032930	C76407584
100	डीजीएन इन्वेस्टर्स सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049723	C76562800
101	शाहाज इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2014PTC066318	C76563774
102	प्रोमेथन इ सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2010PTC041588	C76576172
103	आदिश डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054612	C76674969
104	अच्युतानन्द डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056228	C76676162
105	अच्युता डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056254	C76680313
106	अभयमुक्त डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056105	C76687524
107	अभिनव डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055957	C76688654
108	अजसगाथा डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056435	C76690577
109	अजयद्वैत डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056389	C76696871
110	आरूपित डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055067	C76699636
111	अभयदान डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056106	C76694074
112	आयूश लेसर एण्ड होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55101UP2009PTC036994	C76697580
113	आलमगीर डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056437	C76717685
114	स्टारलाइन कोलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058415	C39735865
115	स्टारलाइन इन्फ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058537	C39739859
116	अभिषू डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055985	C76706910
117	अभिष्ट डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056001	C76728351
118	आशू डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055883	C76730191
119	आशजोशू डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055658	C76730506

SI No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
120	अभिदान डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056403	C76772805
121	अभिताप डेयरी एण्ड फार्म्स उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056002	C76774595
122	हिमालयन नेचुरल एग्री बायोकेम (इंडिया) लिमिटेड	U24233UP2012PLC049927	C76845163
123	श्री एसीईएस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC059663	C76564558
124	रैलीमार्क डीओसी सपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC053012	C75792846

पुनीत कुमार दुग्गल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और 64 कम्पनियों के संबंध में

जयपुर-302001, दिनांक 5 फरवरी 2016

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/537—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
01	034207	अग्रागामीनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
02	037588	मा पितम्बरा बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड
03	037906	शान्ति नाथ ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
04	031853	नेट ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
05	029454	सौर टेक्नोक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
06	034745	नेटवर्कर्स आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
07	027894	स्प्रिंगवेली रियलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
08	046393	एपीएन इण्डस्ट्रियल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
09	037331	मेनो होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	036152	एम्पल इन्फोसोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
11	019450	सिनोस्योर इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
12	011602	सेन्चुरी प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
13	030740	एलसीआई एजूकेशनल टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
14	035841	ब्रॉन्ज बशिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
15	037636	स्पेक्ट्रम वेटेरिनरी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	026972	ओक्टानेट सोफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
17	033742	श्री सूर्या रियलहोम प्राइवेट लिमिटेड
18	043497	मारवाडी इन्फ्रा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
19	030688	मा कैला देवी कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
20	021098	कोस्मोपोलिटन हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
21	014285	श्री राम स्पूनटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
22	040599	स्रेपस कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
23	045938	नेक्सोनी आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24	029655	एथोज (इण्डिया) फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
25	015275	अजरू इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
26	002556	वनिला एक्वीबिटर्स प्राईवेट लिमिटेड
27	024695	सुप्रीम गारटेक्स एसेसिरीज प्राईवेट लिमिटेड
28	028905	रॉयल लैण्डस्केपर्स प्राईवेट लिमिटेड
29	038815	शिवाया माइन एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
30	025563	ओरबिट स्टारकन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31	042949	अनुठी क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32	035727	सेडालाईट ऑनलाइन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
33	035329	अमीरा फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
34	043487	यूनिट सुपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
35	038351	श्री हरिकृपा कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
36	044482	निर्मल डायमण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
37	043194	प्रोपर पेस्ट कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
38	033243	वेलीव्यू हिल रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
39	034421	सेठ सलजकॉन प्राईवेट लिमिटेड
40	031235	जनसहयोग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
41	013480	ऑनिक्स मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
42	028112	मट्रो मोसाईक प्राईवेट लिमिटेड
43	035952	ऑस्कर मिनकेम प्राईवेट लिमिटेड
44	035953	वाईब्रेन्ट ऑवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
45	029396	ब्लीट्ज कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
46	013173	डून्डार मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
47	039738	पीवीआरएम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
48	018345	दौलत कॉलोनाईजर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
49	038993	फरसोया एण्ड कोलाडो इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
50	035717	जिन्दल होममार्ट प्राईवेट लिमिटेड
51	030663	सेन्डयून्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
52	034170	विरासत जर्नीज प्राईवेट लिमिटेड
53	027624	शान्ति मदर एण्ड चाइल्ड हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
54	035378	श्रीनाथ मल्टीमार्ट प्राईवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
55	024059	दास मेडीवेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
56	014468	श्री धांधारी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
57	026243	सिलाईन जयपुर ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
58	042220	क्राउन अपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
59	033248	मजेस्टिक प्राईम होम्स प्राईवेट लिमिटेड
60	037023	जीनस बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
61	024543	राइटवे फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
62	046700	ब्रिक वाल कन्सलटिंग प्राईवेट लिमिटेड
63	046011	निर्मल ट्रेडेक्स लिमिटेड
64	027245	मोनस्टर स्टॉक डील प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दीकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
सह उप शासकीय समापक
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई—400002, दिनांक 9 फरवरी 2016

सं. आरओसी/एफटीई—2011/560(5)/1697—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :-

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
1	ग्लोटेक्स मेडिकविप प्रा. लि.	U51505MH2003PTC143632	B74668286
2	अँक्मे टेक्सटाइल्स प्रा. लि.	U74999MH1963PTC012592	B77592616
3	जास्मिन कन्सट्रक्शन प्रा. लि.	U45202MH1990PTC054981	B79548343
4	ब्रेकथू मार्केटिंग (इंडिया) प्रा. लि.	U51900MH1991PTC063115	B87855631
5	ग्रिनटच लॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि.	U01117MH2008PTC180613	B88274121
6	जानुस इंटरपैक प्रा. लि.	U21020MH2008PTC180981	B92733765
7	एपेक्स वर्डवाइड प्रा. लि.	U74120MH2011PTC224178	B98399033
8	अशोक टुर्स अँड ट्रॅवल्स इंडिया प्रा. लि.	U63040MH2002PTC134504	B98679038
9	संकल्प वाइनरी प्रा. लि.	U51228MH2008PTC178251	B98727522
10	बि सी कथरानी इनव्हेस्टमेंट्स अँड फायनान्स प्रा. लि.	U65990MH1981PTC025173	C00319475
11	सिलेबी मुंबई कार्गो टर्मिनल मॅनेजमेंट इंडिया प्रा. लि.	U74120MH2012FTC238884	C00541276

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
12	केडिएम रेसिडेन्सी प्रा. लि.	U45202MH2010PTC207752	C00900258
13	रेमिण्डो सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	U72200MH2006PTC160582	C01087022
14	टोपैक मार्केटिंग प्रा. लि.	U29198MH1985PTC035641	C01504224
15	प्रोकेम इंजिनिअरींग सर्विसेस प्रा. लि.	U29200MH1991PTC062394	C01504422
16	टोपैक इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि.	U67120MH1997PTC106494	C01504513
17	के.जि.एन हॉर्टीकल्चर फर्मस प्रा. लि.	U01403MH2010PTC210758	C01924661
18	नूर लॉजीस्टिक प्रा. लि.	U35122MH2010PTC202187	C01927706
19	प्रशस्ती कंसट्रक्शन्स प्रा. लि.	U45200MH2005PTC152443	C01984327
20	फ्युअल सेल लुमिनर्स प्रा. लि.	U74900MH2010PTC206460	C04005377
21	चौधरी इन्फ्रावैचर्स प्रा. लि.	U45400MH2012PTC226909	C04579595
22	बिर्ला इन्फ्रासोलुशन्स लि.	U45202MH2008PLC186677	C04625489
23	वरद मॅनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	U74140MH2007PTC175762	C05957196
24	रेपिन्ड टेक्निकल सर्विसेस प्रा. लि.	U11100MH2009PTC197875	C06040125
25	लॉयड्स इक्वीटीज अण्ड डिबेन्चर्स लि..	U67120MH1993PLC072127	C09596990
26	एलटेक इंटरअॅक्टिव 3डी सोलुशन्स प्रा. लि.	U72900MH2011PTC214712	C09693482
27	अनसुया फार्मा प्रा. लि.	U85110MH1998PTC115160	C09705849
28	एज्युकेशन फॅसिलिटेशन सर्विसेस प्रा.	U22300MH1991PTC060229	C09714270
29	डीस्ता इन्व्हेस्टमेंट अण्ड फायनान्स प्रा. लि.	U65990MH1993PTC071282	C09737834
30	मंगनानी एक्सपोर्ट्स अण्ड फायनान्स प्रा. लि.	U51900MH1979PTC021871	C09746082
31	जेएस सीएनसी मॅनुफैक्चरींग प्रा. लि.	U30005MH2013PTC244682	C09811621
32	मोनार्च बिल्डर्स प्रा. लि.	U70100MH1989PTC052449	C09873167
33	धीमगमन कार्स प्रा. लि.	U51502MH2006PTC166612	C09920125
34	गुडलाइफ हॉस्पिटॅलीटी प्रा. लि.	U55101MH2010PTC202123	C09921024
35	सार इन्फोवे लि..	U27200MH1992PLC067918	C09922410
36	होरमझड होटेल्स प्रा. लि.	U55204MH2013PTC242203	C09979147
37	क्रीटीकम मेडीकल सिस्टीम्स इंडीया प्रा. लि.	U74900MH2012PTC234225	C10059764
38	बि जे मार्केटिंग प्रा. लि.	U21020MH1999PTC122939	C10192383
39	ब्युटी क्वीन (इंडीया) प्रा. लि.	U24246MH2006PTC164297	C10271344

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
40	फ्लेमिंगो ड्युटी फ्री शॉप डेल्ही प्रा. लि.	U74999MH2006PTC163822	C10279685
41	आरडन्ट फुडस प्रा. लि.	U55200MH2005PTC154218	C10402386
42	मोनीडो इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा. लि.	U29120MH1995PTC094306	C10465730
43	कारविंग ड्रीम्स डिजीटली प्रा. लि.	U74900MH2007PTC176314	C10509578
44	ब्रीसन रामा पॉवर इन्फ्रा अंडव्हायर्स प्रा. लि.	U74120MH2010PTC210022	C10513844
45	केलवीन प्लास्टिक्स प्रा. लि.	U25209MH1989PTC053072	C10515013
46	सुमीतो डायर्स प्रा. लि.	U17120MH1996PTC101599	C10517639
47	रिमेन कंसलटींग प्रा. लि.	U74140MH2011PTC225413	C10643492
48	मारतंडा फिनलीज प्रा. लि.	U65923MH2004PTC090782	C10651792
49	नतुन फिनलीज प्रा. लि.	U65920MH1995PTC087923	C10652303
50	आर.ए.वाय कॉन्सेप्ट अण्ड मॅनुफॅक्चरींग प्रा. लि.	U74940MH2014PTC253110	C10743268
51	महालक्ष्मी स्टारचेम प्रा. लि.	U24133MH2006PTC162479	C10764959
52	मातृ मंदिर आवास प्रा. लि.	U74900MH2010PTC198382	C10767549
53	सनहील्स विनियल्स प्रा. लि.	U25203MH2011PTC217114	C10844223
54	श्री ओम नमहा इंटरस्पेस प्रा. लि.	U45202MH2013PTC242264	C10848372
55	फ्रिडम वर्थ वेल्थ सर्विसेस प्रा. लि.	U74900MH2010PTC203009	C10900686
56	निर्वान इन्फ्रास्टक्चर्स प्रा. लि.	U45400MH2007PTC171832	C11020559
57	इंडस्ट्रीयल कोटिंगज (बॉम्बे) प्रा. लि.	U24220MH2005PTC155508	C11028677
58	नीकाश इन्फ्राकॉन प्रा. लि.	U45400MH2013PTC245457	C11087616
59	नीशीका हॉस्पीटैलीटी प्रा. लि.	U55209MH2013PTC245504	C11088697
60	पर्पल मेकओव्हर सलोन प्रा. लि.	U74999MH2012PTC238349	C11095627
61	लेगाटो वेलनेस प्रा. लि.	U93000MH2011PTC221310	C11100187
62	एफपी गुरु प्रा. लि.	U67190MH2011PTC213432	C11112398
63	गणपती साल्ट प्रा. लि.	U24100MH2010PTC208128	C11162823
64	वोल्ट-फेस ब्रॅण्ड मॅनेजमेंट प्रा. लि.	U74120MH2012PTC230146	C11163581
65	एलएमजी फार्मा प्रा. लि.	U74120MH2011PTC213551	C11173549
66	ग्लेर इंजीनिअरिंग प्रा. लि.	U29253MH2011PTC224927	C11198934

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
67	सिमोना केबल नेटवर्क प्रा. लि.	U74120MH2012PTC227576	C11270287
68	देवरा इको कंपनी होल्डींग्स प्रा. लि.	U65923MH2011PTC216520	C11321510
69	ड्रग्स प्रोसेस लायसनिंग अँफिलेट्स प्रा. लि.	U74999MH2012PTC227773	C11324779
70	लनवीन होटल्स प्रा. लि.	U55101MH2007PTC173751	C11349032
71	उर्वी नेटवर्कस प्रा. लि.	U72900MH2007PTC169812	C11484557
72	बि एस हायड्रोकार्बन्स प्रा. लि.	U51410MH2008PTC183775	C11545225
73	बि एस ए छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्रा. लि.	U40102MH2006PTC165429	C11579844
74	बिहेवीरॉल सायन्स सेंटर (इंडिया) प्रा. लि.	U74140MH1989PTC050225	C11649092
75	ओसेनीक इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट्स इंडिया प्रा. लि.	U74900MH2013PTC239609	C11754710
76	हेचर कंसलटींग ग्रुप प्रा. लि.	U74140MH1987PTC042853	C11787538
77	बाजारगेट कंसलटन्ट्स प्रा. लि.	U74990MH2008PTC188808	C11787850
78	एपीआर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेस प्रा. लि.	U51909MH2008PTC178335	C11799798
79	कोलंबिया कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	U29253MH2013PTC246707	C11812039
80	इन्फ्राग्रुह रिअल्टी प्रा. लि.	U70102MH2010PTC210179	C11909454
81	जीके फायनान्स अँड इनव्हेस्टमेंट कंसलटन्सी प्रा. लि.	U67190MH2008PTC177206	C11917994
82	एश्वर्या ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.	U40103MH2011PTC214587	C11946803
83	इवुडो एन्टरप्राइजेस प्रा. लि.	U27101MH2011PTC214863	C11962073
84	नन्दी रिइन्सुरन्स ब्रोकिंग अँड रिस्क मैनेजमेन्ट प्रा. लि.	U66020MH2009PTC193722	C12065751
85	नेफरोमेड डायलसीस सेंट्रल प्रा. लिमिटेड	U85191MH2010PTC206899	C12181269
86	चार्यजरस इनटरलिनिंग (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	U17120MH2004PTC149930	C12200051
87	प्रिमियर लिनेरस प्रा. लिमिटेड	U45200MH1966PTC013476	C12257960
88	रागा रियलिटी प्रा. लिमिटेड	U70101MH2006PTC165705	C12294294
89	भारत कोलकता टर्मिनल प्रा. लिमिटेड	U61200MH2012FTC231371	C12346839
90	व्हाइट ओशन डीजीटल सोलुशन्स प्रा. लिमिटेड	U72300MH2012PTC239173	C12347639
91	डिमा डेन्टल इनश्युरंस प्रा. लिमिटेड	U99999MH2006PTC158791	C12421350
92	एसे फंड एडवायजर प्रा. लिमिटेड	U65923MH2009PTC192509	C12447249
93	चिसतिया लॉट्री ट्रेडिंग एंड सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U74999MH2013PTC246103	C12500674
94	आर्ट स्टॉक्स कन्सलटंट्स प्रा. लिमिटेड	U74140MH2011PTC217930	C12507117

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
95	रेअलिसटा फेरीअस प्रा. लिमिटेड	U63090MH2012PTC234488	C12602280
96	झिओन बिज़िनेस सोलूशन प्रा. लिमिटेड	U74900MH2011PTC219126	C12605119
97	संपत्ती4 यू सोलूशन प्रा. लिमिटेड	U74140MH2013PTC248546	C12618757
98	जे पी आर इटरटेडमेंट प्रा. लिमिटेड	U92100MH2008PTC187107	C12766655
99	सान-राम लाईफ स्टाईल प्रा. लिमिटेड	U74120MH2012PTC233385	C12870739
100	किरनदुल वैज्ञाग पाईप लाइन प्रा. लिमिटेड	U45400MH2012PTC232877	C12926341
101	गुरुश्री कृपा डेंटल केअर वर्ल्ड प्रा. लिमिटेड	U93090MH2011PTC217061	C13043294
102	आरती रेडिमेट एंड अंबरेला मेनुफेक्चरींग प्रा. लिमिटेड	U40101MH1992PTC065233	C13162144
103	अजंता करीअर्स प्रा. लिमिटेड	U60222MH2013PTC244530	C13180575
104	सुरजगड ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	U51909MH2013PTC239952	C13181755
105	ए डब्ल्यू एल शिपींग एंड फॉर्वरडींग प्रा. लिमिटेड	U74999MH2013PTC243786	C13183058
106	राधेश टेक्सटाईल प्रोसेसिंग प्रा. लिमिटेड	U17120MH1988PTC050171	C13220652
107	उत्तम इंजिनिअरींग कन्सलटंटसी प्रा. लिमिटेड	U28920MH1993PTC072834	C13232376
108	मुकट फायनास् लिमिटेड	U65990MH1994PLC076438	C13285184
109	इन्टरएक्टिव गेम्स प्रा. लिमिटेड	U72200MH2013PTC243218	C13357272
110	रिसर्ज सेंटर फोर मायक्रोव्हेज टेक्नोलॉजिस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	U73100MH2011PTC218266	C13363460
111	केएमएसीएस एज्युकेशन प्रा. लिमिटेड	U80301MH2010PTC210958	C13470570
112	व्हालटेक्स क्रीयेशन प्रा. लिमिटेड	U45403MH2004PTC147702	C13693072
113	क्षितिज होलिडेज प्रा. लिमिटेड	U55101MH2009PTC195312	C13760335
114	पीचरेस्कु होलिडेज और प्रा. लिमिटेड	U55101MH2009PTC190244	C13772801
115	पीकेसी ड्रेडिंग एंड इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड	U74999MH2013PTC245442	C13783592
116	नोलेज ईस्टेट्स प्रा. लिमिटेड	U45203MH2007PTC173837	C13842638
117	विराज रिअल इस्टेट प्रा. लिमिटेड	U70200MH1999PTC123039	C13911904
118	विराज लेंडमार्क्स प्रा. लिमिटेड	U45200MH1999PTC123031	C13917109
119	आकार सिक्युरिटी सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U67100MH2009PTC196897	C13921986
120	गॉप इनवेस्टमेंट कन्सलटंटसी प्रा. लिमिटेड	U67100MH2009PTC197105	C13922299

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
121	विराज रेसिडेंसीस प्रा. लिमिटेड	U70100MH1999PTC123035	C13944319
122	हायटेक इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रा. लिमिटेड	U51500MH2000PTC124065	C13946694
123	विराज प्रा. लिमिटेड	U70100MH1999PTC123040	C13948344
124	फाईन पेट एंड कॅप्स प्रा. लिमिटेड	U25200MH2008PTC187822	C13980644
125	सनराईज फ्रेट कनेक्शन्स प्रा. लिमिटेड	U63040MH1998PTC113381	C14047484
126	सुखनंद एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	U51900MH1999PTC118335	C14090278
127	रेड पाण्डा कंसलटिंग प्रा. लिमिटेड	U74140MH2011PTC221965	C14110472
128	रेव्हज ट्रेडर्स एंड मेन्युफ्रेक्चर्स प्रा. लिमिटेड	U55101MH2009PTC195319	C14309710
129	सर्मपण फुड्स प्रा. लि.	U15100MH1997PTC107101	C14315428
130	दत्तात्रया अँग्रो टेक प्रा. लि.	U01403MH2007PTC172333	C14339592
131	टेडपैक्यू टीआरएम (इंडिया) प्रा. लि.	U67100MH2009PTC196315	C14341655
132	वर्कसौर ऑनलाईन सर्विसेस प्रा. लि.	U72400MH2010PTC200633	C14439012
133	श्री स्वामी समर्थ पॉवर एन्ड इन्फ्रा प्रा. लि.	U45400MH2011PTC224921	C14445720
134	टाईल्स अग्री डेवलपमेंट एन्ड हॉस्पिटैलीटीज प्रा. लि.	U55101MH2010PTC207264	C14465454
135	फायरवर्क्स अग्री डेवलपमेंट हॉस्पिटैलीटीज प्रा. लि.	U55101MH2010PTC207911	C14466981
136	लिनडेन अग्री व्हेर्चस एन्ड हॉस्पिटैलीटीज प्रा. लि.	U55204MH2010PTC207720	C14468078
137	मस्क अग्री व्हेर्चस एन्ड हॉस्पिटैलीटीज प्रा. लि.	U55204MH2010PTC207721	C14470082
138	गुज्जेनियम प्रोटोफॉईल मैनेजमेंट इंडिया प्रा. लि.	U67190MH2011FTC224218	C14530091
139	अल्यूमल्टी इनवेसमेंट्स प्रा. लि.	U67120MH1993PTC075865	C14603070
140	सी लैंड लेझर इंडिया प्रा. लि.	U74210MH1999PTC118701	C14627459
141	अलकझेंडर हॉस्पिटैलीटी सर्विसेस प्रा. लि.	U55101MH2007PTC169897	C14756852
142	अल्फा लिगल सर्विसेस प्रा. लि.	U74110MH2007PTC169922	C14764674
143	असेस कुरिअरस प्रा. लि.	U64120MH1988PTC049152	C14781314
144	हाय स्पिरिट्स एन्ड फुअल्स प्रा. लि.	U24233MH2007PTC168125	C14805253
145	इसाम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रा. लि.	U45400MH2012PTC233499	C14825434
146	कोटयुरल वेअर्स प्रा. लि.	U17120MH2013PTC247345	C14867360
147	कोकेट फॅब्रिक प्रा. लि.	U18204MH2013PTC246465	C14870034
148	गेईटी होटल्स प्रा. लि.	U55101MH2013PTC246462	C14870570
149	गॅलमर ग्लास प्रा. लि.	U26100MH2013PTC246518	C14871040
150	मजेंटा कलर्स प्रा. लि.	U24233MH2013PTC246262	C14871461
151	रेक्टीस कलर्स प्रा. लि.	U24200MH2013PTC246906	C14871859

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
152	सुप्रीमो इन्फोटेक प्रा. लि.	U72300MH2013PTC246905	C14872170
153	डॉलसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U72200MH2006PTC163062	C14967962
154	फॅबसॉलव टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U72200MH2006PTC163832	C14973382
155	फॅसील मार्केटिंग एन्ड मॅनेजमेंट सर्विसेस लि.	U74900MH2010PLC205598	C15023807
156	पीपीएल इंपेक्स प्रा. लि.	U51909MH2003PTC142566	C15035447
157	सीरेज शिपिंग प्रा. लि.	U63090MH2005PTC155560	C15055981
158	अमृता संजिवनी मेडीकल सेंटर एन्ड नर्सिंग होम प्रा. लि.	U85110MH2003PTC143542	C15071574
159	साई आधार डेवलपर्स इंडिया प्रा. लि.	U45200MH2007PTC167869	C15175631
160	मिडास टच कंपीटल मॅनेजमेंट प्रा. लि.	U67190MH2009PTC195296	C15182504
161	शाश्वत कनेक्शन प्रा. लि.	U74120MH2012PTC236402	C15184526
162	अॅडप्ट अॅप्लीकेशन्स एन्ड सर्विसेस प्रा. लि.	U93000MH2008PTC185681	C15205230
163	अेजॉन हीव्स प्रा. लि.	U74990MH2009PTC190777	C15296650
164	जोशी हायड्रो पॉवर लि.	U74999MH1998PLC114713	C15328909
165	गरिमा लॉजीस्टिक प्रा. लि.	U63012MH2011PTC214988	C15335482
166	अडारटिक ओशन शिपिंग प्रा. लि.	U35110MH2007PTC175779	C15380025
167	शॅपेन हॉस्पिटैलीटी प्रा. लि.	U74900MH2011PTC221682	C15384704
168	डूनो संगम एंटरटेनमेंट प्रा. लि.	U92110MH2004PTC145748	C15395890
169	सर्मजीत लैण्ड डेवलमेंट प्रा. लि.	U70102MH2010PTC202271	C15407158
170	सिटीलाईट्स इस्टेट डेवलपर्स प्रा. लि.	U45200MH2004PTC149024	C15411010
171	करणराज डेवलपर्स प्रा. लि.	U45201MH2006PTC158906	C15421225
172	अभी सेर्स प्रा. लिमिटेड	U51909MH2007PTC171421	C15469786
173	अन्सा सेर्स एगेन्सी प्रा. लिमिटेड	U74900MH2007PTC171217	C15470594
174	ड्रेम मर्चन्ड हॉस्पिटैलीटी प्रा. लिमिटेड	U55101MH2007PTC169834	C15503022
175	टेप्सी टेक्नाजीस प्रा. लिमिटेड	U72900MH2013PTC243832	C15546336
176	गोडा हार्ड सेन्टर प्रा. लिमिटेड	U85100MH2008PTC177654	C15555055
177	सोर्स नोवा मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड	U51101MH2011PTC221867	C15566466
178	आंबावले प्रा. लिमिटेड	U92120MH2007PTC172770	C15580343
179	आर टि स्टार सोरिटे गेम्स प्रा. लिमिटेड	U37100MH2010PTC204470	C15582315
180	डिजे फॉन्शिअड एन्ड मॉनेजमेंट कंन्शटन प्रा. लिमिटेड	U74140MH1986PTC040683	C15604119
181	प्रेजर कन्सट्री सर्विस प्रा. लिमिटेड	U74140MH2007PTC176975	C15758758
182	वेलडन वॉल्टिंग प्रा. लिमिटेड	U27310MH2008PTC181077	C15801897

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
183	कार्ट प्रापर्टी प्रा. लिमिटेड	U70102MH2011PTC224295	C15812779
184	डाई अकझिम प्रा. लिमिटेड	U51109MH2011PTC224442	C15815962
185	टेक्नॉस्टोर्स प्रा. लिमिटेड	U28931MH2010PTC202202	C15854268
186	207ऐग्जमैंड सोल्युशन प्रा. लिमिटेड	U74120MH2012PTC226743	C15867187
187	आपेक्ट सेर्स एण्ड ब्रोकर प्रा. लिमिटेड	U67190MH2000PTC124517	C15895840
188	रिवलि रिटेल प्रा. लिमिटेड	U52209MH2007PTC171948	C15967433
189	हि स्किल अरोप्स पेस प्रा. लिमिटेड	U35303MH2006PTC164507	C15970049
190	एमएनएस सेक्युरिटी सेर्स प्रा. लिमिटेड	U51909MH2000PTC128516	C15992837
191	केकेसी buQkLVDpj प्रा. लिमिटेड	U60222MH2005PTC158258	C16111726
192	श्री समारपन पुर्ण एण्ड पेपर प्रा. लिमिटेड	U21020MH2010PTC210806	C16117418
193	मगनुम यलपीजी बोट्लिंग प्रा. लिमिटेड	U11100MH2011PTC220344	C16157687
194	निलपाडम .ट्रेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट लिमिटेड	U51900MH1993PTC070553	C16270142
195	हेरीटेज माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड .	U74999MH1993PTC070833	C16318529
196	निरंजन होल्डींग्स प्रा. लिमिटेड	U65100MH2009PTC191402	C16354904
197	हि वि .पेपर्स प्रा. लिमिटेड	U51101MH2012PTC234213	C16412082
198	वानि अर्टस प्रा. लिमिटेड	U74999MH2010PTC209193	C16434771
199	राहुल इन्फॉबिल्ड लिमिटेड	U70109MH2010PLC210597	C16488488
200	ग्रीन बिल्ड रेअर इस्टेट प्रा. लिमिटेड	U70109MH2008PTC183484	C16536898
201	एसपीपी मरिन सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U63032MH2005PTC151826	C16538860
202	अबसेज सोल्युशन प्रा. लिमिटेड	U72900MH2010PLC199516	C16572703
203	ब्लिम हॉस्पिटल मॉनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	U55101MH2007PTC172669	C16615429
204	कमलिक कान्शुटन्स प्रा. लिमिटेड	U65990MH1987PTC042943	C16635948
205	इनकप अडविस प्रा. लिमिटेड	U74120MH2012PTC235547	C16796302
206	कारोया डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड	U45400MH2010PTC206800	C16826570
207	आरटीएस फाइनेंशियर प्रा. लिमिटेड	U51909MH1997PTC110669	C16833857
208	मिटरि टेक्नालॉगिस प्रा. लिमिटेड	U31900MH2008PTC183179	C16930372
209	एसएमजी काम्यूटर्स प्रा. लिमिटेड	U72900MH2007PTC170904	C16972655
210	फार्बेज स्लिपिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमिटेड	U63090MH2013PTC242040	C16987174

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
211	कमबाट लाव पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड	U22120MH2001PTC134316	C17036047
212	से फॉक डेव्हलोपर्स(इंडिया) प्रा. लिमिटेड	U70101MH2003PTC142839	C17090069
213	एसआरआर-टेच टेक्नालॉजिस प्रा. लिमिटेड	U32204MH2011PTC223244	C17129875
214	व्हीएम कॉफे डे अर्ट प्रा. लिमिटेड	U55101MH2005PTC152711	C17206657
215	गजेलि कन्शुटींग सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U74900MH2012PTC236550	C17675265
216	मानव गारमेन्ट्स प्रा. लिमिटेड	U18101MH2008PTC186545	C17877127
217	नुक्लीअस फार्म एण्ड हांटचेरीस प्रा. लिमिटेड	U01139MH2006PTC166560	C17883356
218	क्रिएटीव अँडविर्स वर्ड प्रा. लिमिटेड	U74140MH2006PTC161984	C17934670
219	नुवनुक इंटरएक्टिव प्रा. लिमिटेड	U92412MH2008PTC181352	C17958539
220	टापलाक इंडिया वेब सेल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड	U93090MH2010PTC198502	C18109843
221	शाहा वाडोटारिया इंड्रयस्ट्रीअर एस्ट्रेड प्रा. लिमिटेड	U74999MH1980PTC022992	C18371492
222	अकर शेयर इनटरमिडियाट्रेस प्रा. लिमिटेड	U65990MH1990PTC059528	C18601229
223	अपेक्स फाइन चेम प्रा. लिमिटेड	U24100MH2010PTC204917	C18626432
224	एलान फाइन एण्ड लिज़िंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	U65920MH1996PTC099975	C18650911
225	एडीएन सोनिक सिस्टिम प्रा. लिमिटेड	U29100MH2012PTC233868	C18651455
226	अजमेरा फिइन सेप्ट्री सोल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड	U74920MH2008PTC181562	C18653212
227	अजमेरा टेलिकम्यूनिकेशन प्रा. लिमिटेड	U32204MH2008PTC181561	C18660142
228	ग्रीन नेटवर्क टेकनोसोल्यूशन प्रा. लिमिटेड	U72900MH2013PTC243407	C18747659
229	सिकोप इंडिया प्रा. लिमिटेड	U74120MH2011PTC215222	C18763763
230	युनीस्ट्रार एक्जिम प्रा. लिमिटेड	U51909MH2007PTC170228	C18905711
231	गारोडिया प्रापर्टीज एण्ड फाइनेंशियल प्रा. लिमिटेड	U70100MH1995PLC085960	C18906164
232	एचयूवेद प्रिन्ट प्रा. लिमिटेड	U22219MH2008PTC185907	C18990671
233	सारावन केअर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U93000MH2010PTC204756	C19042183
234	एआरएस आयआय रिअरकॉन इंडिया प्रा. लिमिटेड	U70102MH2013PTC247991	C19063023
235	रॉयल यूरोप टूर प्रा. लिमिटेड	U63090MH2011PTC212408	C19070101
236	पारमार्थि ट्रांस एण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड	U51430MH2005PTC152456	C19194166
237	अरचिट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड	U51909MH2013PTC240294	C19245117
238	एल मनसुर ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड	U51109MH2009PTC195207	C19296425

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
239	गिरिशन्स ट्रेस्ट्रीस प्रा. लिमिटेड	U51311MH1996PTC099899	C19298744
240	अमेटी मेडिया एण्ड इटरट्रेनमेन्ड प्रा. लिमिटेड	U92490MH2013PTC247214	C19331172
241	क्रोर्च प्रास्टिक प्रोडक्ट्स प्रोडक्स प्रा. लिमिटेड	U25194MH2013PTC247839	C19332196
242	पिस्टन ऑटो कम्पोनेन्स प्रा. लिमिटेड	U34102MH2013PTC247639	C19332733
243	नॉववेक ट्राइलिंग प्रा. लिमिटेड	U51101MH2013PTC247025	C19333087
244	फायर्मांमेन्ड डेव्हर्पर्स प्रा. लिमिटेड	U45400MH2013PTC247117	C19333533
245	रिडियम रिअरटर्स प्रा. लिमिटेड	U45203MH2013PTC247640	C19334218
246	एक्सपेडिअस ट्रान्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड	U60231MH2013PTC246510	C19335694
247	प्राटो अडवर्स सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U74999MH2013PTC247850	C19336262
248	पाइंट बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड	U45200MH2013PTC247171	C19336601
249	स्टीर बुसिनेस सोल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड	U74900MH2013PTC247829	C19337039
250	रिअम बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड	U45209MH2013PTC247849	C19337294
251	एरोक्युण्ड क्युकेशन अकाडेमी प्रा. लिमिटेड	U80904MH2013PTC247123	C19337476
252	झेयलंग डेव्हर्पर्स प्रा. लिमिटेड	U45400MH2013PTC247115	C19338086
253	टिन्गे पिन्डस प्रा. लिमिटेड	U24299MH2013PTC247261	C19338573
254	स्पुटनिक बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड	U45201MH2013PTC247119	C19338938
255	जास्पर क्रोटेट पेपर्स प्रा. लिमिटेड	U21023MH2013PTC247636	C19361757
256	इंटरस्क़ाई सेक्यूरिटी एण्ड पर्सनर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U74920MH2009PTC194780	C19420694
257	शामबाबा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	U70102MH2010PTC205844	C19424522
258	लोटस डिस्ट्रीलिरिस प्रा. लिमिटेड	U15532MH2008PTC188568	C19492297
259	लोटस टेलिसेर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U64201MH2008PTC187656	C19497221
260	नागारजून मेडिक्रिनेस प्रा. लिमिटेड	U24239MH1996PTC102095	C19525682
261	युनिल टेक्नोलॉजिस प्रा. लिमिटेड	U72200MH2007PTC170722	C19602275
262	फ्रेमिन्गो गोवा रिटाइर प्रा. लिमिटेड	U52100MH2007PTC176164	C19676535
263	अल्लिट लिअरनिंग सोल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड	U80903MH2008PTC188590	C19691617
264	गोल्डलाइन फार्माशि एण्ड इनवेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड	U65990MH1996PTC101676	C19796259
265	बिवोमिल मार्केटींग प्रा. लिमिटेड	U24239MH1999PTC122812	C19826130
266	रिवोन ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड	U51311MH1996PTC101084	C19841113

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
267	इंटग्रेटेड फास्टेनिंग टूल्स प्रा. लिमिटेड	U29253MH2013PTC240048	C19866847
268	एसविए स्पास एम एण्ड एस प्रा. लिमिटेड	U74900MH2010PTC204940	C19896273
269	स्वान क्यूरिर्स एण्ड कारगो प्रा. लिमिटेड	U99999MH1995PTC084284	C19912880
270	बुटिर्स मॉचिन टूल्स प्रा. लिमिटेड	U67120MH1981PTC025272	C19981836
271	सोलरिव एस्टेर्स प्रा. लिमिटेड	U45200MH1995PTC094849	C19999663
272	सितल रिसोर्ट प्रा. लिमिटेड	U63018MH1991PTC063018	C20029765
273	टर्गेट मोटिसन डिस्प्रे प्रा. लिमिटेड	U74300MH2006PTC163033	C20073078
274	टाइम एण्ड पिप्ले टेक्नॉलॉजिस प्रा. लिमिटेड	U72200MH2005PTC154471	C20100244
275	युटर्क्स मूर्टीट्राडे मार्केटींग सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U51101MH2010PTC204968	C20125266
276	एस.एस.कास्टर्स प्रा. लिमिटेड	U27310MH2006PTC161306	C20162731
277	मिन सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड	U72200MH1995PTC090659	C20208054
278	होरिजॉन एक्स्पोज प्रा. लिमिटेड	U74999MH2008PTC179878	C20209656
279	मिरेकल ज्वेलर्स प्रा. लिमिटेड	U74120MH2011PTC222431	C20214540
280	कलापुर्णा फाइनेंशियर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U67110MH2009PTC191832	C20219804
281	योगेंद्रा अर्टस टेस्टिस प्रा. लिमिटेड	U17120MH1993PTC072356	C20297172
282	स्युव इंटरएक्टिव प्रा. लिमिटेड	U74900MH2012PTC234653	C20312583
283	आरटीएस फाइनेंशियर प्रा. लिमिटेड	U65999MH2011PTC225070	C20318341
284	स्टार्क कॉन्सुर्टनस प्रा. लिमिटेड	U67190MH2004PTC145733	C20325163
285	मट्रीस मारिटाइम प्रा. लिमिटेड	U93030MH2012PTC233831	C20347795
286	स्टार एवन्स प्रा. लिमिटेड	U93000MH2009PTC189991	C20386777
287	इएस-टेच टर्ग कॉन्सुटन्स प्रा. लिमिटेड	U74140MH2010PTC198777	C20402285
288	ओम साई मन्ट्रा पावर ऑफ ओकेन्स प्रा. लिमिटेड	U40300MH2012PTC230927	C20443966
289	गुलमोहर इन्फ्राटेक प्रा. लिमिटेड	U72900MH2007PTC176627	C20474136
290	विवा मोटर्स प्रा. लिमिटेड	U34200MH2008PTC179605	C20526919
291	दर्यानानी अर्चिटेक्स एण्ड कॉन्सुर्टिंग सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U74210MH1981PTC024257	C20605374
292	फ्रेफेरिड ग्रास प्रा. लिमिटेड	U26100MH2005PTC151853	C20637385
293	किंगस्टोन हायर पर्वेस एण्ड लिसिंग प्रा. लिमिटेड	U65921MH1995PTC092168	C20637849
294	छिहा मोटिन पिक्टुहॉउस प्रा. लिमिटेड	U92110MH2001PTC133226	C20786000

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
295	मेगाटिस प्रार्माक्युटिक्स प्रा. लिमिटेड	U72100MH2000PTC126398	C20788253
296	मोबाइल क्युच प्रा. लिमिटेड	U74120MH2014PTC252335	C20832051
297	जेएमएस एड्युवर्ड प्रा. लिमिटेड	U80904MH2012PTC239068	C20851275
298	लॉन सेर्स प्रा. लिमिटेड	U29195MH2005PTC154043	C20888350
299	राशिक मोटार्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	U34300MH2005PTC152136	C20893723
300	एडसी डेशिंग इन्वाटीन्स प्रा. लिमिटेड	U74999MH2008PTC186903	C20913505
301	एसटी .अनग्लोस एग्रीकलचर एण्ड कॉनस्ट्रुसन प्रा .लि.	U01403MH2010PTC200304	C20918264
302	सुसार प्रापर्टीस प्रा. लिमिटेड	U70102MH2010PTC200786	C20920823
303	एवेरगॉव बिल्डटेच प्रा. लिमिटेड	U45400MH2010PTC205085	C20927638
304	स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नॉजीस प्रा. लिमिटेड	U74120MH2013PTC243560	C21105911
305	पफ एण्ड प्ले डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लिमिटेड	U74900MH2014PTC253478	C21125042
306	ब्रेनओमॅजीक एज्युकेशन सर्विसेस प्रा. लि	U80900MH2010PTC200842	C21149737
307	लुसेन्ट वेंचर्स प्रा. लि	U28112MH2010PTC206586	C21158308
308	एम्पीरिकल ऑफशोर सर्विसेस प्रा. लि	U93090MH2011PTC214409	C21176391
309	अष्टविनायक मल्टीमीडिया प्रा. लि	U92100MH2007PTC176560	C21220181
310	डॉपेलगन्गर हॉस्पिटैलीटी प्रा. लि	U74999MH2010PTC200594	C21255575
311	ड्रीम फाँडल्स प्रा. लि	U27203MH2008PTC183311	C21310958
312	अँक्युमेन इक्विटी ब्रोकिंग अँडव्हायझरी प्रा. लि	U67190MH2011PTC218689	C21347810
313	ममता प्रोडक्शन प्रा. लि	U74999MH2011PTC222783	C21355607
314	ला लाइफकेअर प्रा. लि	U24100MH2009PTC192003	C21370168
315	श्रीज क्राउड एन्टरटेनमेन्ट प्रा. लि	U92400MH2012PTC230634	C21474853
316	एरोकॉन रेन्ट-ए-कार प्रा. लि	U63090MH2013PTC240792	C21528393
317	अजमेरा इन्शोरेन्स ब्रोकिंग लि	U67200MH2008PLC183510	C21533005
318	प्रीयम डेव्हलपर्स प्रा. लि	U45400MH2010PTC199184	C21539838
319	स्काय वर्ड्स कन्सल्ट्रक्शन्स प्रा. लि	U45200MH2011PTC215959	C21563242
320	एटीएमए फार्मस प्रा. लि	U01403MH2008PTC177775	C21573787
321	विवा जीनिंग प्रा. लि	U18101MH2010PTC211496	C21574256
322	सिलेंडर लॉजीस्टीक (इंडिया) प्रा. लि	U63010MH1992PTC070011	C21586581

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
323	वीवा कोटेक्स प्रा. लि	U18101MH2010PTC210536	C21634233
324	मेडीट्रान्स इन्फोटेक प्रा. लि	U72900MH2007PTC170167	C21643762
325	आयडीबीआय इन्फ्राफीन लि.	U65923MH2012PLC227445	C21678248
326	उत्सव टेक्नोइंज प्रा. लि	U74120MH2011PTC224490	C21701230
327	जेसीए कंसलटिंग प्रा. लि	U74140MH2008PTC178255	C21821848
328	क्रॉसलाइन ट्रेडिंग प्रा. लि	U51909MH2010PTC204854	C21865472
329	होमयार टेक्नोलॉजीस प्रा. लि	U74120MH2011PTC224459	C21938097
330	जिवीएस फार्मा प्रा. लि	U24230MH2004PTC144417	C21939699
331	चितलीया एज्युकेशन प्रा. लि	U80301MH2001PTC130733	C21970181
332	कपील वायर्स अँड केबल्स प्रा. लि	U31300MH1988PTC046252	C22002463
333	सोमलियर्स विनियार्ड प्रा. लि	U15520MH2007PTC174901	C22139158
334	जलाराम रिअल्टर्स प्रा. लि	U45202MH2010PTC204983	C22147342
335	कुबेराय होम प्रा. लि	U70102MH2010PTC210219	C22147607
336	कुबेराय शेल्टर्स प्रा. लि	U70102MH2010PTC208877	C22147714
337	रॉकफोर्ड बायोटेक प्रा. लि	U74900MH2013PTC239740	C22158349
338	सुमवीन फेब्रिक्स प्रा. लि	U17120MH2000PTC126910	C22192470
339	परीनीता रिअल्टर्स अँड फायनान्शीयल सर्विसेस प्रा. लि	U45200MH2008PLC179137	C22229488
340	ब्राइट आयडीया रिअल्टी मार्केटिंग प्रा. लि	U70101MH2012PTC237890	C22239222
341	सिल्वरक्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि	U45400MH2011PTC212661	C22273114
342	प्रोप्रायटी कंन्सट्रक्शन्स प्रा. लि	U70102MH2011PTC221286	C22436224
343	अवोनेक्स पॉवर टूल्स इंडिया प्रा. लि	U29199MH2006PTC164800	C22456008
344	इ-स्क्वेअर फुचरीस्टीक प्रा. लि	U72900MH2010PTC210976	C22513329
345	गुसा स्नॅक्स प्रा. लि	U74120MH2011PTC223803	C22789382
346	यस पॉवर टूल्स प्रा. लि	U51101MH2013PTC242964	C22807069
347	पूजा मरीन प्रोडक्ट्स प्रा. लि	U15122MH2007PTC176110	C22847677
348	जेएसडब्ल्यू इस्टेट्स प्रा. लि	U70102MH2012PTC231149	C23121569
349	ट्रायकॉन एनर्जी बिपिओ प्रा. लि	U72300MH2011FTC215771	C23220965
350	फिनिवेव ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि	U51909MH2004PTC147658	C23283906

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
351	हयात होल्डिंग्स प्रा.लि.	U65923MH2010PTC207170	C23565161
352	एसजीएफ स्टोअर कन्सेप्ट प्रा.लि.	U74900MH2010PTC206424	C23657703
353	इकोटोनिक्स ऐर्नजी प्रा.लि.	U40109MH2010PTC203816	C23667942
354	निल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रा.लि.	U70100MH2011PTC212647	C23716517
355	निल रिअलटर प्रा.लि.	U70102MH2011PTC213077	C23717499
356	उन्नती गेम्स एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U51398MH2004PTC145918	C23966617
357	व्हाइट गोल्ड फायनांशियल अॅडव्हाइजर प्रा.लि.	U67190MH2007PTC173721	C24060352
358	त्रिशा कॉटन प्रा.लि.	U74900MH2011PTC220688	C24093601
359	प्रतिशता इन्फोटेक प्रा.लि.	U74999MH2012PTC235925	C24160137
360	मिलेनियम कोटिंग टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.	U74999MH2001PTC131380	C24208829
361	इको कन्सलटेंसी एन्ड प्रॉडक्स प्रा.लि.	U74990MH2008PTC188474	C24268609
362	अनुकृति डिजायनर प्रा.लि.	U74999MH1986PTC038996	C24271108
363	श्री मुझीक्स मिडिया प्रा.लि.	U92120MH2008PTC177796	C24281594
364	सीएमआय इनोव्हेटीव लॉजीस्टिक्स प्रा.लि.	U63090MH2012PTC228503	C24307266
365	सबटेल कारपोरेट सर्विसेस प्रा.लि.	U74900MH2010PTC207815	C24377046
366	सायटेक रिसर्च एन्ड डेवलपमेंट प्रा.लि.	U73200MH2014PTC254793	C24487613
367	नोईसीस कंपीटल अॅडव्हाइजर प्रा.लि.	U74140MH2010PTC204991	C24508483
368	स्टैंडीजीक बिज़नेसेस अॅडव्हाइज़री इंडिया प्रा.लि.	U74140MH2000PTC127125	C24558132
369	बायोफॉब्रिन हैल्थकेअर प्रा.लि.	U24230MH2000PTC127540	C24616385
370	व्ही एस मसुरकर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	U45201MH2001PTC133327	C24660524
371	अनुवैभव बिल्डकॉन प्रा.लि.	U45201MH2006PTC163586	C24663544
372	अर्चिहस्ता कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि.	U45202MH2009PTC195742	C24684151
373	व्हीआरएम इनोव्हेन्स प्रा.लि.	U74999MH2003PTC140672	C24824534
374	आयएनक्स एक्झिक्यूटिव सर्च प्रा.लि.	U74990MH2009PTC190178	C24845331
375	आयएनक्स सर्विसेस प्रा.लि.	U74990MH2009PTC191436	C24851511
376	आकाश रिअल इस्टेट प्रा.लि.	U70100MH2007PTC170608	C24879843
377	मिस्त्री सिक्युरिटीज प्रा.लि.	U67120MH1993PTC071083	C24890444
378	बिएम इंडिया अॅडव्हाइज़री प्रा.लि.	U74140MH2007PTC169688	C24898439
379	ब्लैकरॉक इंडिया प्रा.लि.	U72900MH2006PTC162717	C24937740
380	मिरॅकल वर्कस मिडिया प्रा.लि.	U92100MH2007PTC174262	C25013301
381	शानी इन्फो ऐज प्रा.लि.	U74990MH2010PTC201308	C25179938
382	अदवूर्ब सोलूशन्स प्रा.लि.	U74900MH2010PTC198607	C25192857
383	डीएम पॉलीप्लास्ट प्रा.लि.	U25203MH2013PTC243092	C25223926

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
384	विक्रम क्रियेशन्स एन मोरे प्रा.लि.	U93030MH2012PTC229429	C25293861
385	कन्झूमर कनेक्ट मार्केटिंग सर्विसेस [इंडिया] प्रा.लि.	U74999MH2002PTC136211	C25314519
386	सीएसएएम टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.	U72900MH2008PTC181782	C25318163
387	ख्याती होल्डिंग्स प्रा.लि.	U45202MH1994PLC081897	C25504218
388	टॅरो कार्बन रिसोर्स प्रा.लि.	U74999MH2012PTC230351	C25634304
389	देवाशीष इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	U45400MH2011PTC218476	C25703588
390	एक्सएल लॉगविटी ऑप्टिक्स प्रा.लि.	U74999MH2007PTC168050	C25719998
391	ओयीकॉस एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	U52190MH2010PTC210966	C25726449
392	अव्हिगना ग्रिन्स प्रा.लि.	U01403MH2011PTC225313	C25753062
393	मेगासॉफ्ट कोरे सोल्यूशन्स प्रा.लि.	U72200MH2007PTC170134	C25794363
394	वेदीक्यूअर वेलीनेस प्रा.लि.	U85190MH2005PTC157753	C25828419
395	नितीन इस्टेट लाईव-स्टॉक एन्ड फर्म प्रा.लि.	U01210MH1998PTC117423	C25883836
396	बिल्डिंग हेल्दी फुचर्स प्रा.लि.	U85191MH2013PTC243952	C25950973
397	ब्रिग कन्सलटंट्स प्रा.लि.	U74140MH2007PTC170321	C26121814
398	मोबाईलसिस्टम्स सोल्यूशन्स प्रा.लि.	U72200MH2012PTC225823	C26194514
399	पॅकबिझ प्रा.लि.	U74120MH2011PTC220480	C26229443
400	डीडी एन्ड एस ऑकोनर्स पेन्ट्स प्रा.लि.	U26900MH2006PTC161039	C26293084
401	एडुबेस्ट सोल्यूशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	U93030MH2011PTC214321	C26539049
402	रॉयल किड्स एज्युकेशन प्रा.लि.	U80101MH2006PTC163063	C26737510
403	अॅलीक्स कॉस्मी इंटरनेट सर्विसेस प्रा.लि.	U51103MH2003PTC051287	C26744748
404	पेरीसाईड सिस्टम्स प्रा.लि.	U72300MH2012PTC235830	C26802504
405	प्रोलीफक आर्यन्स प्रा.लि.	U29253MH2007PTC170109	C26803239
406	सिक्वुअर एन्ड सेफ कन्सलटंसी सर्विसेस प्रा.लि.	U74990MH2012PTC227263	C26818955
407	मधु प्राईम स्पेस प्रा.लि.	U70101MH2007PTC168653	C26820886
408	सद्गुरु एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	U51109MH2009PTC191668	C26824177
409	एच ए एक्सीम टेकस्टाईल प्रा.लि.	U17291MH2013PTC240815	C26830364
410	सिनर्जी प्रिंटिंग प्रा.लि.	U22210MH2008PTC183918	C26859322
411	तृप्ति रिसर्च ट्रेनिंग एन्ड कन्सलटंसी प्रा.लि.	U73100MH2011PTC220849	C27002005
412	एच डी लॉजीस्टिक प्रा.लि.	U74999MH2011PTC218898	C27004993
413	बिल्स अंडव्हायझरी सर्विसेस प्रा.लि.	U74140MH2005PTC151212	C27058361
414	स्टैंडीजीक इंडिया रिअल इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.	U70100MH2006PTC161029	C27070119
415	स्टैंडीजीक ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.	U65991MH2003PTC138620	C27071687
416	विटीशचेम सीक्युरिटीज प्रा.लि.	U65999MH2010PTC199906	C27077809

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
417	स्कोपएक्झीम हेल्थकेअर प्रा.लि.	U51101MH2011PTC225236	C27210186
418	माइस इन सिन एंटरटेनमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	U92110MH2004PTC148404	C27278654
419	टॉरक्यू प्रमोशन प्रा.लि.	U72300MH2010PTC208224	C27323138
420	मातालक्ष्मी फायनांशियल सर्विसेस प्रा.लि.	U67190MH2004PTC150164	C27325042
421	हिमालया ट्रेड्स एन्ड एजन्सीज प्रा.लि.	U74990MH1996PTC096989	C27429281
422	गजलक्ष्मी कन्सलटंट्स प्रा.लि.	U74100MH2005PTC151189	C27509207
423	रत्ना पॅथॉलॉजी लैबोरेटरी जालना प्रा.लि.	U85195MH2002PTC136175	C27726983
424	शिव-ओम नमकीन एन्ड फुड्स डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा.लि.	U15400MH2009PTC192022	C27765510
425	अल्फा शेअर ट्रेडिंग प्रा.लि.	U45200MH2003PTC142640	C27832294
426	इकोसेफ कारगो मूर्वस प्रा.लि.	U63090MH1999PTC123233	C27905694
427	संदिप स्टिल्स ट्रेडिंग प्रा.लि.	U74120MH2013PTC242650	C28185775
428	कॅम मार्टिन कन्सलटंट्स प्रा.लि.	U93000MH2011PTC218802	C28429132
429	कुंजन सिल्क प्रा.लि.	U17120MH1991PTC061451	C28463859
430	दादाभई इंटरप्राइजेस प्रा.लि.	U63040MH1991PTC060608	C28498707
431	स्नैचकिंग ऑनलाईन प्रा.लि.	U74140MH2006PTC166571	C28542215
432	नेचर वेल्थ फुड एन्ड एर्नजी प्रा.लि.	U40106MH2008PTC187050	C28668010
433	विशाल रिअल इस्टेट एन्ड बिल्डर्स प्रा.लि.	U70101MH2005PTC156241	C28676211
434	एफइबीसी कन्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रा.लि.	U45200MH1996PTC097490	C28692887
435	श्री गणेश्वर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि.	U45400MH2008PTC186962	C28776763
436	सुजाता सेमी कन्डक्टर्स प्रा.लि.	U32105MH2003PTC032500	C28885945
437	इव्हेंजिन बायो सायन्स प्रा.लि.	U73100MH2012PTC234798	C29047834
438	निप्रो डायरेक्ट मार्केटिंग प्रा.लि.	U74990MH2010PTC211121	C29126042
439	प्लसमार्क मल्टिट्रेडिंग प्रा.लि.	U52100MH2009PTC195435	C29137825
440	मयुर प्रॉडक्शन्स प्रा.लि.	U51100MH1996PTC104745	C29267762
441	शुभम वेलनेस प्रा.लि.	U93090MH2011PTC216517	C29316254
442	मेटीस लॉजीस्टिक प्रा.लि.	U74900MH2011PTC219487	C29327665
443	श्रीएम टेकस्टाईल व्हेंचर्स प्रा.लि.	U74120MH2013PTC246612	C29421831
444	पॉलोमी एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	U52590MH2010PTC204292	C29465697
445	हेल्थकेअर एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	U51101MH2011PTC219670	C29467784
446	सुमुख मॅनटेक्स इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U51310MH1987PTC044354	C29585007
447	खोज्ञान टेकस्टाईल प्रा.लि.	U51311MH1999PTC119279	C29589660
448	मेरीस्टिम सोल्यूशन्स प्रा.लि.	U74120MH2013PTC245462	C29659463
449	एसडी मनोरे एन्ड मायनिंग प्रा.लि.	U14200MH2008PTC178670	C29666815

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
450	सत्तराम ओरे प्रा.लि.	U13209MH2008PTC178382	C29668159
451	स्टेलीअन एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	U92190MH2008PTC184793	C29674694
452	युनिवर्सल पॉवर एक्सचेंज प्रा.लि.	U72900MH2008PTC179392	C29685674
453	युनिवर्सल कंपिटल हाउस प्रा.लि.	U67190MH2010PTC210127	C29687803
454	सोनीदो ऑडीओ वीडियो इंडिया प्रा.लि.	U74120MH2012PTC227100	C29706538
455	सिनोप्सीस इटलेक्टस इंडिया प्रा.लि.	U72300MH2012PTC235469	C29763851
456	आयटी पिपल बीपीओ प्रा.लि.	U74900MH2008PTC185333	C29764545
457	राहुल अग्रो मार्केटिंग प्रा.लि.	U51200MH2005PTC155586	C29781234
458	अटेन्टिव लैंड डेवलपर्स प्रा.लि.	U70102MH2010PTC201154	C29802956
459	ग्रैंड हरिसन हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि.	U55101MH2011PTC216531	C29857836
460	युरो इंडिया टेक्नोलॉजी व्हेंचर्स प्रा.लि.	U74140MH2007PTC176469	C29875200
461	अक्शाटेक सोल्यूशन्स प्रा.लि.	U72200MH2003PTC143225	C30095327
462	श्री तुप्ति स्टील ट्रेडर्स प्रा.लि.	U27100MH1998PTC112916	C30099014
463	झेनित फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रा.लि.	U29270MH1997PTC107824	C30174700
464	अथक प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U45400MH2008PTC178399	C30339824
465	इनोरेमस प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U45400MH2007PTC175189	C30340384
466	स्टारशाइन वेअरहाउसिंग एन्ड लॉजीस्टिक्स प्रा.लि.	U63023MH2008PTC184856	C30341531
467	स्टैंथ रिअल इस्टेट प्रा.लि.	U70102MH2007PTC170061	C30342489
468	अद्वैता फुड्स प्रा.लि.	U51220MH2005PTC153779	C30374946
469	सिमैटिक इन्फोटेक प्रा.लि.	U64200MH2000PTC127946	C30624837
470	स्पुनबिल लाईफस्टाईल प्रा.लि.	U18109MH2010PTC210970	C30706964
471	अमरिंद कन्सलटंट्स प्रा.लि.	U74140MH1982PTC028000	C30796387
472	वज्रि मार्केटिंग प्रा.लि.	U51900MH1988PTC046526	C30818108
473	मनिष ट्रान्समीशन प्रॉडक्स प्रा.लि.	U31100MH1974PTC017827	C30866636
474	नीर मैनेजमेंट प्रा.लि.	U74900MH2012PTC229213	C30889547
475	ब्ल्यूविस्ट व्हेंचर्स प्रा.लि.	U01403MH2010PTC198489	C30932081
476	सिंगमे मैनेजमेंट प्रा.लि.	U74140MH2008PTC186909	C30935324
477	सोलोरिबेट इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U40300MH2011PTC222376	C30964043
478	अल टेल ऑल्यूमीनियम एन्ड टेलीकॉम सिस्टम प्रा.लि.	U74999MH2009PTC196604	C30997811
479	इस्टविंड ग्रेनाईट्स प्रा.लि.	U14200MH2010PTC203770	C31001548
480	नवकेत माईन्स प्रा.लि.	U14200MH2011PTC213674	C31014517
481	एमव्हीएन सोलर प्रा.लि.	U40300MH2011PTC220216	C31020738
482	एअरफास्ट लॉजीस्टिक्स प्रा.लि.	U63090MH2005PTC153650	C31030570

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
483	डीआयए-एक्झीम मर्कनटाईल प्रा.लि.	U74999MH2011PTC219542	C31042609
484	अॅडव्हासड प्रोटोटाइपिंग प्रा.लि.	U74900MH2007PTC175035	C31070147
485	भैरवनाथ हॉस्पीटल्स प्रा.लि.	U85110MH2002PTC138281	C31090798
486	केएस मैनपॉवर प्लेसमेंट – स्टाफींग सर्विसेसे प्रा.लि.	U74999MH2011PTC217332	C31091655
487	प्रीझम मैनेजमेंट कन्सलटंसी प्रा.लि.	U74140MH2001PTC133504	C31093644
488	पेरुमल शिपिंग प्रा.लि.	U63090MH2012PTC238383	C31180789
489	मीनू बिलीमोरीया ट्रेडिंग प्रा.लि.	U51990MH1983PTC030504	C31264708
490	गाया बायोपॉलीमर्स प्रा.लि.	U74999MH2008PTC185698	C31265184
491	स्टोअर7 मल्टिट्रेड प्रा.लि.	U52100MH2012PTC238078	C31271521
492	टीझी मोबाईल व्हॅल्यू अॅडेड सर्विसेस प्रा.लि.	U72900MH2009PTC194485	C31318207
493	ब्लिस ट्रेडिंग एन्ड इनवेसमेंट्स प्रा.लि.	U51900MH1995PTC092215	C31329915
494	नोव्हाकॉम टेकनॉलॉजीस इंडिया। प्रा.लि.	U72200MH2001PTC131509	C31422363
495	अविनाश लाईफस्टाईल प्रा.लि.	U74990MH2008PTC189160	C31473200
496	भाग्योदय क्रियेशन्स प्रा.लि.	U51909MH2006PTC164980	C31480833
497	मिर्नव्हा स्विचगियरस एन्ड कन्टोल्स प्रा.लि.	U31902MH1996PTC097701	C31494636
498	पर्पल बेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U01403MH2009PTC190438	C31495518
499	स्टड सेफ्टी प्रॉडक्ट्स प्रा.लि.	U29253MH2012PTC228923	C31498470
500	शाहवास डायगोनोस्टीक सेंटर प्रा.लि.	U85195MH2008PTC186593	C31575087
501	श्री दुर्गा उलवन होटल्स प्रा.लि.	U55101MH2007PTC171762	C31581010
502	वगाड मेटल प्रा.लि.	U27101MH2009PTC192621	C31687130
503	अॅपल ट्री आयडीयाटमेंट प्रा.लि.	U72900MH2008PTC184054	C31719826
504	नेक्स्ट लेवल कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि.	U45400MH2012PTC237048	C31721368
505	ओशिअन्स रिअल इस्टेट प्रा.लि.	U45200MH2008PTC182457	C31722226
506	विनायक पॉवर लि.	U40109MH2009PLC196867	C31722689
507	नेक्स्ट डीविलिंग्स प्रा.लि.	U45300MH2012PTC237034	C31798549
508	मोरया ऑटो प्रा.लि.	U34107MH2011PTC216200	C32008195
509	आदेश्वर डेवलपर्स प्रा.लि.	U45201MH2007PTC174063	C32101297
510	कुमुदिनी कनल्सटंस प्रा.लि.	U74140MH1991PTC062016	C32129413
511	अनसा डीस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रा.लि.	U51900MH1998PTC115848	C32134793
512	मेटस्टार इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U29190MH2008PTC181292	C32197063
513	किवी अर्बन डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	U45400MH2007PTC177111	C32208589
514	ट्रायकाया फर्मस प्रा.लि.	U01407MH2008PTC182798	C32218646
515	वैद्य इनवेसमेंट्स प्रा.लि.	U65993MH2004PTC147854	C32263683

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
516	अमरस्वरूप स्टील कंपनी प्रा.लि.	U28129MH2013PTC246811	C32266744
517	व्हिजनइन्फोसायर इंफोव्हेर्स प्रा.लि.	U55101MH2008PTC177401	C32271231
518	राविश लाईफस्टाईल प्रा.लि.	U74990MH2008PTC189161	C32309346
519	एक्झुटायर्नस इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	U74210MH2008PTC179882	C32348245
520	आत्मावली इन्वोवर्टस एन्ड ट्रेडर्स प्रा.लि.	U17291MH2011PTC213552	C32391070
521	सीकन्सील इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U34100MH1987PTC043866	C32542508
522	ला फल्क शिपिंग एन्ड ट्रेडिंग प्रा.लि.	U74900MH2010PTC199713	C32543118
523	अवस्था कंसल्टिंग प्रा.लि.	U74120MH2011PTC222187	C32605990
524	टी के हेल्थकेअर (इंडिया) प्रा.लि.	U85190MH2003PTC139346	C32652976
525	राजस्थान कमोडिटीज प्रा.लि.	U51219MH2006PTC163083	C32688723
526	ग्राफीक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि.	U45200MH2005PTC157889	C32694077
527	डायना क्लोदिंग कंपनी प्रा.लि.	U17200MH2008PTC183140	C33106477
528	बीएनडोड अंडेवर्चर स्पोर्ट्स प्रा.लि.	U92411MH2006PTC161241	C35981778
529	वेटबल्ब फ टेक प्रा.लि.	U29195MH2001PTC133031	C38174819
530	एरोलाईट अंडवायझरी सर्विसेस प्रा.लि.	U74140MH2009PTC197208	C46031696

एस. पी. कुमार
कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 फरवरी 2016

सं. आरओसी/से.560/एफटीई-2011/1756—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :-

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
1	के टेक लेवल इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	U74900MH2007PTC172031	C43548056
2	प्लाझमा एडवायझरी सर्विसेस प्रा.लि.	U74999MH2009PTC197923	C42403808
3	स्पॅरो ट्रेडिंग प्रा.लि.	U51909MH2010PTC204197	C39180484
4	कॉसमॉस एडवायझरी सर्विसेस प्रा.लि.	U74140MH2009PTC197218	C44248664
5	ओएन्डओ प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U45209MH2011FTC224817	C35766732
6	सिक्युरिटी एन्ड टॅकिंग आर एफ आय डी सोल्युशन्स प्रा.लि.	U74900MH2009PTC196819	C33944349

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
7	विधि टेनझड प्रा.लि.	U17200MH2011PTC218800	C37874823
8	प्रिशित कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45400MH2011PTC212314	C32477648
9	युनीटेड सेफबिल्ड प्रा.लि.	U45202MH2008PTC183462	C34776344
10	कोबेल्ड स्टिट रियालीटी प्रा.लि.	U45400MH2011PTC217108	C33122946
11	विज्ञाद नेटवर्क सिस्टम्स प्रा.लि.	U72300MH2011PTC222883	C33301144
12	वर्धनाम फुड्स प्रा.लि.	U15122MH2012PTC234078	C34358606
13	विके इनफ्रारियालीटी प्रा.लि.	U70102MH2008PTC183541	C33485517
14	व्हाइट स्टोन प्रॉडक्शन्स प्रा.लि.	U22219MH2011PTC216611	C33125592
15	हार्दिक टेनझड प्रा.लि.	U17200MH2011PTC218886	C37711413
16	सराह इनफ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.	U45201MH2006PTC163890	C36819027
17	लक्ष्मपुर अँग्रोटेक इंडिया प्रा.लि.	U10300MH2011PTC220968	C34087098
18	त्रीस्टार ऑरगॅनिक प्रा.लि.	U55101MH2010PTC205591	C32940769
19	त्रीस्टार रिटेल व्हेचर्स प्रा.लि.	U52520MH2010PTC199135	C32941445
20	आय्यासा इंजिनिअरिंग सर्विसेस प्रा.लि.	U93000MH2010PTC207921	C32791683
21	स्टॅटलाईट पेन्यूमॅटिक प्रा.लि.	U74999MH2008PTC187900	C35828904
22	संजीवनी लाईफस्पेस प्रा.लि.	U45200MH2012PTC234066	C35325547
23	बिम्स हॉस्पिटल्स बेंगलूरु प्रा.लि.	U93000MH2013PTC244714	C32816464
24	टॅनक्युल एडव्हायझर एन्ड ब्रोकर्स प्रा.लि.	U74140MH2010PTC205428	C32986713
25	हबिब टेडिंग एन्ड इंजिनिअरिंग कंपनी प्रा.लि.	U51900MH1999PTC121412	C36655785
26	अम्युज इंडिया प्रा.लि.	U51391MH2001PTC130406	C37479946
27	जे जे इस्पात प्रा.लि.	U28112MH2010PTC201810	C35892231
28	हेल्थ क्युस्ट हेल्थकेअर कन्सलटन्स प्रा.लि.	U85195MH1993PTC071611	C33290164
29	एस जी पै इक्वीटी रिसर्च प्रा.लि.	U65990MH2004PTC146350	C33166869
30	शालीनी गुप्ता फायनांशियल सर्विसेस प्रा.लि.	U67190MH2004PTC144649	C33189648
31	शांतिराज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि.	U45200MH2003PTC143229	C33486721
32	वुशु टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.	U72900MH2013PTC250180	C34106062
33	पिरीओरी इंटरैक्टिव प्रा.लि.	U72900MH2011PTC221209	C36885937
34	अल-अफीया डेवलपर्स रियलटर्स प्रा.लि.	U45202MH2011PTC215162	C37447729

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
35	मोसीब टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.	U24211MH2013PTC248515	C36086114
36	अॅडज़ंकर्स स्टुडीओ प्रा.लि.	U93090MH2009PTC194195	C32962466
37	लेक्ससर्वे इंडिया प्रा.लि.	U74990MH2012PTC229445	C33746744
38	एजीआर सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	U72900MH2008PTC189195	C37512209
39	इंदा प्रोकॉन प्रा.लि.	U45200MH2012PTC232158	C34394924
40	के-स्वेकअर एफ एन्ड बी प्रा.लि.	U15400MH2010PTC206018	C32942070
41	निवेध अल्युमीनीयम इंडिया प्रा.लि.	U27310MH2012PTC231178	C33521972
42	मॅक्समीत टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.	U72100MH2005PTC153213	C33096280
43	रॅटीओनल मरीन ऑफशोर प्रा.लि.	U11100MH2013PTC247000	C33389156
44	कारे प्लस मार्केटिंग प्रा.लि.	U51909MH2002PTC137096	C33106428
45	सामेश्वर फुड्स प्रा.लि.	U15410MH2008PTC183892	C33109158
46	सोलारीस किलन प्रॉडक्स एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	U40300MH2011PTC225412	C33333774
47	अनुराग बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	U45200MH2004PTC145533	C32995417
48	युवानिस अॅन्टी- एजींग सोल्यूशन्स प्रा.लि.	U51109MH2009PTC190497	B77041135
49	वाईडस्प्रेड मर्कटाइल्स प्रा.लि.	U74120MH2012PTC233550	C33222993
50	कॅचीज इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन प्रा.लि.	U80904MH2011PTC222712	C33929183
51	गलीयाकोटवाला इस्टेट लि.	U74999MH1947PLC005875	C35650944
52	लिओ इन्फ्राक्वेचर्स प्रा.लि.	U70100MH2011PTC214702	C35676105
53	बिरुंज बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH2011PTC218941	C33531161
54	स्वागत इन्फ्रा-प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	U45200MH2008PTC181213	C35304062
55	अदिती रेऑन्स एन्ड सेंथेटिक्स प्रा.लि.	U17110MH1996PTC104081	C31776750
56	अलफलाह इस्टेट एन्ड प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	U70101MH1993PTC070539	C34941351
57	गोयल अॅग्रो एन्ड बोर्ड्स प्रा.लि.	U15122MH2011PTC216152	C31779168
58	क्लेराईस सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	U72300MH2011PTC221381	C32961872
59	टॅवल स्टुडीओ इंडिया प्रा.लि.	U63040MH2011PTC219341	C35319839
60	ब्रेटर ब्रॅन्ड मार्केटिंग इंडिया प्रा.लि.	U51909MH2010PTC205253	C35488584
61	पिरॅमल ट्रान्सपोर्टेशन प्रा.लि.	U60231MH2010PTC206907	C35490820
62	हम्पी इन्क्वेसमेंट्स प्रा.लि.	U65993MH2005PTC152203	C32988438

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
63	नागपूर रिअलटर्स प्रा.लि.	U70102MH2007PTC169555	C35221704
64	मुनिच इस्टेट प्रा.लि.	U70109MH2013PTC244229	C34312124
65	अजमेरा वेअरहाउसींग कॉम्पलेक्स प्रा.लि.	U63020MH1996PTC098206	C35355551
66	फीनीस वर्ल्डवाइड एक्सपोशन्स प्रा.लि.	U74300MH2005PTC158080	C34163006
67	एनएसआर सोल्यूशन्स प्रा.लि.	U72900MH2007PTC176889	C34646976
68	फॅबीना फॅशन्स प्रा.लि.	U52320MH2000PTC127940	C33730532
69	हेरीटेज हेअरलाईन्स प्रा.लि.	U62100MH2005PTC151746	C33596271
70	ग्रिनऑपल रिटेल प्रा.लि.	U52324MH2013PTC250952	C35539527
71	रीटच लॅब्स प्रा.लि.	U85195MH2008PTC187650	C33759325
72	श्री हरीओम स्टॉक्स एन्ड सिक्यूरिटीज प्रा.लि.	U65990MH1996PTC100090	C33024381
73	फॉरच्यून डिजीटल मिडीया प्रा.लि.	U74120MH2011PTC222168	C33765322
74	यमला ट्रेडिंग प्रा.लि.	U51900MH1999PTC123328	C32717589
75	एसजी पै इनवेसमेंट एडव्हाइसर्स प्रा.लि.	U67190MH2004PTC144496	C33183401
76	मुक्तिस्टार होटल्स एन्ड डेवलपर्स इंडिया प्रा. लि.	U55101MH2006PTC164216	C34069542
77	के 2इआरपी।इंडिया। प्रा.लि.	U74900MH2008PTC180598	C34384842
78	क्युयासर एडवायझरी प्रा.लि.	U74140MH2006PTC164881	C32901175
79	चेरीपिकर फिल्मस प्रा.लि.	U92100MH2008PTC186118	C33975145
80	वीटबाय एन्ड ब्रिड।इंडिया। प्रा.लि.	U74210MH2005PTC156815	C32981250
81	डेलाफास्ट एक्सपोर्टर्स प्रा.लि.	U99999MH1986PTC040839	C34837500
82	छगनलाल शुकरनदास मेटल प्रा.लि.	U28112MH2011PTC220654	C34603001
83	छिन्नमोल हेल्थ प्रा.लि.	U85191MH2010PTC208776	C34825034
84	इनफोलॉजीक कन्सलटंसी सर्विसेस प्रा.लि.	U72900MH2010PTC208149	C33215138
85	अर्पित जिंदाल बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH2004PTC144817	C35260082
86	प्रसवा इस्टेट प्रा.लि..	U45200MH1984PTC034436	C35414986
87	पायलटर फायानांशियल सर्विसेस प्रा.लि.	U67190MH2010PTC201466	C35427350
88	माउंट कंडक्टर्स प्रा.लि.	U31300MH1995PTC092242	C33119629
89	एपीजी रोड एन्ड रेल ट्रांसपोर्ट्स प्रा.लि.	U60231MH2010PTC208123	C35489624

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
90	साईलब्रेक व्हेचर्स प्रा.लि.	U74120MH2012PTC233510	C32873317
91	अर्णव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स प्रा.लि.	U72200MH2006PTC162511	C35550938
92	बिम्स हौस्पिटल हैदराबाद प्रा.लि.	U93000MH2013PTC244776	C34731588
93	ऑप्टीमेड हेल्थकेअर प्रा.लि.	U85100MH2012PTC227409	C36889145
94	मैक्झिमा हेल्थ सर्विसेस प्रा.लि.	U85100MH2009PTC196715	C32653560
95	अमल बात्रा अंडव्हरटायज़िंग प्रा.लि.	U74300MH2010PTC210648	C37173614
96	नये प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	U45202MH2008PTC177838	C36471316
97	जे कुमार एक्स्ट्रा को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	U45400MH2011PTC223110	C32680720
98	आयएस कॉन्ट्रूनिंग एज्युकेशन प्रोव्हायडर्स प्रा.लि.	U80900MH2004PTC147543	C35887736
99	अक्षर रश मोशन पिक्चर प्रा.लि.	U92100MH2011PTC213020	C33012139
100	प्रशिक्षा फार्मासिटिकल्स प्रा.लि.	U24297MH2013PTC239369	C34068767
101	बि एल ए रिनिवेबल एर्नजी प्रा.लि.	U40101MH2008PTC183023	C11580313
102	बिएलए कोला मायनींग एन्ड वॉशरीज प्रा.लि.	U13100MH2005PTC152081	C11581881
103	करिश्मा एर्नजी प्रा.लि.	U45200MH2007PTC175841	C11475142
104	भारत ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन प्रा.लि.	U92100MH2008PTC184412	C11335163
105	अॅशटेक डिलर्स प्रा.लि.	U51909MH2010PTC206490	C35892272
106	अलाईड ग्लोबल सर्विसेस प्रा.लि.	U72300MH2012PTC234290	C37192200
107	रॅम्प एक्झोटीक प्रॉडक्ट प्रा.लि.	U52397MH2007PTC172656	C36869808
108	आदित्य बायोफार्मा प्रा.लि.	U24239MH2007PTC175623	C37154986
109	मंगल तेज निर्माण प्रा.लि.	U45200MH1995PTC091339	C37032935
110	थर्मोफार्मिंग सोल्यूशन्स इंडिया प्रा.लि.	U25203MH2012PTC235213	C35834969
111	कलाकुंज टेडिंग एन्ड इन्वेसमेंट प्रा.लि.	U51220MH1995PTC085672	C09837469
112	अफरोडाइट टेक्स्टाईल कंसलटंसी प्रा.लि.	U18101MH2006PTC161863	C36409167
113	मिंडस्सेअर कन्सल्टिंग प्रा.लि.	U72200MH1996PTC100447	C36504694
114	लॉन्गा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	U45202MH2010PTC202179	C62585278

एस. पी. कुमार
कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोजासा फ्राग्रेन्सेस एण्ड कॉसमेटिक्स प्रैवेट लिमिटेड, U24244TG2004PTC044100 के विषय में
हैदराबाद—500068, दिनांक 3 फरवरी 2016

सं. आरओसी—एचवाई डी—एपी—टीजी / 560(5) FTE स्कीम—1 / 2016—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है मैसर्स मोजासा फ्राग्रेन्सेस एण्ड कॉसमेटिक्स प्रैवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

एन. कृष्णमूर्ती
कंपनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में।

कोच्चि—682 021, दिनांक 10 फरवरी 2016

सं. नोटिस 560(5) / एफटीई—2016 / 375—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :—

क्रम सं.	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
1	U67120KL2009PTC024627	कोसमोक्स सेक्युरीटिस प्रैवेट लिमिटेड
2	U51392KL2002PTC015411	रब बेड मार्केटिंग प्रैवेट लिमिटेड
3	U15205KL2002PTC015357	हिलवाली फुड प्रैवेट लिमिटेड
4	U74999KL2006PTC019611	शेयरग्रोत रिसर्च प्रैवेट लिमिटेड
5	U51909KL2011PTC027548	एडार्ट ट्रेडर्स प्रैवेट लिमिटेड
6	U63040KL2001PTC014557	अफिनिटि इण्डिया टूरज एण्ड रिसोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
7	U92490KL2005PTC018613	स्पासो इवन्ट मानेजमेन्ट कंपनी प्रैवेट लिमिटेड
8	U45200KL2009PTC024851	सेगुरो एजिनियर्स एण्ड डिवलपर्स प्रैवेट लिमिटेड
9	U70101KL2008PTC022572	मोटटम्मल बिलडर्स एण्ड डिवलपर्स प्रैवेट लिमिटेड
10	U74910KL2007PTC020810	लैवली मानपवर कनसलटन्ट्स (केरला) प्रैवेट लिमिटेड
11	U51219KL2012PTC032618	ग्रीन चिल्ली एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
12	U25209KL2002PTC015165	फलीटरोयिस पोलीविनिल प्रैवेट लिमिटेड
13	U72200KL2012PTC031859	डयललाबस टेक प्रैवेट लिमिटेड
14	U80903KL2012PTC032939	सेनानकिल इंग्लीश टुटोरियल एण्ड कौनसलिंग एडुएलटिएस सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड
15	U31500KL2014PTC037621	मेनोरा पवर प्रैवेट लिमिटेड
16	U51432KL2004PTC016917	इंपिरियल आरकेड प्रैवेट लिमिटेड
17	U45200KL2008PTC022280	अटरियस बिलडर्स एण्ड डिवलपर्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम सं.	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
18	U51909KL2002PTC015783	केप एक्सीम इण्डिया प्रैवट लिमिटेड
19	U45200KL2008PTC022256	अचिलस बिलडर्ज एण्ड डिवलपर्ज प्रैवट लिमिटेड
20	U24240KL2008PTC022772	अवरलैफ कनसूमर प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रैवट लिमिटेड
21	U74910KL2002PTC015470	एबनज़र सेन्टर फोर हुमन रिसोर्स डिवलपमेन्ट प्रैवट लिमिटेड
22	U30006KL2004PTC017687	तोमसन इनफोकॉम प्रैवट लिमिटेड
23	U74300KL2012PTC031363	ऐडक्स मिडिया प्रैवट लिमिटेड
24	U74140KL2013PTC034141	डिऐजेएस टेक्नोलजिस प्रैवट लिमिटेड
25	U72900KL2014PTC037142	डोन्न सिसटम्स प्रैवट लिमिटेड
26	U50500KL2011PTC028951	सिआरआर एण्ड पिऐनजि एक्सपोर्टर्स एण्ड इम्पोर्टर्स प्रैवट लिमिटेड
27	U24229KL2013PTC034842	एलएनडि सिलन्ट्स प्रैवट लिमिटेड
28	U72200KL2015PTC038138	लिमिटलेस ओनलैन सरवीसस प्रैवट लिमिटेड
29	U72300KL2006PTC019268	केयेम ग्राफिक सोलुशन्स प्रैवट लिमिटेड
30	U72200KL2013PTC033045	वोलट्रोयिड सॉफ्टवेयर सोलुशन्स प्रैवट लिमिटेड
31	U80220KL2011PTC029514	सिआरआर एण्ड पिऐनजि इन्स्टीट्यूट प्रैवट लिमिटेड
32	U36911KL2013PTC035359	अलफला गोलड पालस प्रैवट लिमिटेड
33	U36911KL2005PTC018809	भासकर देवजी गोलड एण्ड डयमण्ड ज्वलर्स (इण्डिया) प्रैवट लिमिटेड
34	U52590KL2014PTC036213	स्टैलस्पेक टेक्नोलजिस प्रैवट लिमिटेड
35	U72200KL2008PTC022175	अलवित टेक्नोलजिस प्रैवट लिमिटेड
36	U72200KL2013PTC034203	ऐकोनिज मलटीमिडिया प्रोडक्शन कंपनी प्रैवट लिमिटेड
37	U74900KL2011PTC027720	नेल्ली इनडसट्रीस प्रैवट लिमिटेड
38	U72900KL2015PTC038046	साब्रो सॉफ्टवेयर सोलुशन्स प्रैवट लिमिटेड
39	U51900KL2008PTC023289	ताफर इम्पेक्स एण्ड डिवलपर्ज प्रैवट लिमिटेड
40	U51109KL2003PTC016071	एस के ट्रेडर्स प्रैवट लिमिटेड
41	U45200KL2013PTC034111	स्वपनातिरम बिलडर्ज एण्ड डिवलपर्ज प्रैवट लिमिटेड
42	U28995KL1990PTC005725	नडावरम्बा क्रिष्ण बेल मेटल क्राफ्ट प्रैवट लिमिटेड
43	U33112KL1999PTC012726	शेवत डैयाटेक प्रैवट लिमिटेड
44	U72200KL2012PTC032711	नेडिन वेबएक्सीम प्रैवट लिमिटेड

क्रम सं.	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
45	U01211KL2006PTC020105	पपास डयरी प्रैवट लिमिटेड
46	U92191KL2013PTC035593	वयनाड अडवेन्टर मानेजमेन्ट प्रैवट लिमिटेड
47	U72200KL2011PTC028584	एसकेएसएल सोलुशन्ज़ प्रैवट लिमिटेड
48	U45309KL2010PTC026741	ड्रेयिसाक इण्डिया कनस्ट्रक्शन प्रैवट लिमिटेड
49	U45201KL2002PTC015497	टोपलान्ड बिलडर्ज़ एण्ड डिवलपर्ज़ प्रैवट लिमिटेड
50	U45200KL2013PTC034275	आशसन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रैवट लिमिटेड
51	U72200KL2011PTC027793	फेसटो टेकनसेलजिस प्रैवट लिमिटेड
52	U45200KL2009PLC025042	इण्डियाकापिटोल प्रोजेक्ट्स & प्रोपरटिस लिमिटेड
53	U70100KL2011PTC028273	एएसकेटि रियल एस्टेट एण्ड टूरिसम प्रैवट लिमिटेड
54	U72200KL2013PTC035562	सैबक इनफोटेक प्रैवट लिमिटेड
55	U72200KL2012PTC031124	यूयि सॉफ्टवेयर प्रैवट लिमिटेड
56	U52321KL2006PTC019567	एडप्पाल एन्टरप्राइस प्रैवट लिमिटेड
57	U51909KL2003PTC016046	फयर सिसटम्स केरला प्रैवट लिमिटेड
58	U65992KL2005PTC018220	बानिस्टर चिट्स प्रैवट लिमिटेड
59	U74300KL1995PTC008614	गेस कम्यूनिकेशन्ज़ प्रैवट लिमिटेड
60	U92140KL2013PTC033917	इण्डिरा क्रियेशन्ज़ इण्डिया प्रैवट लिमिटेड
61	U92113KL1993PTC007249	फारसैट मिडिया प्रैवट लिमिटेड
62	U14200KL2012PTC032032	एएनआर ग्रानैट्स प्रैवट लिमिटेड
63	U72200KL2012PTC031804	कनसलटटेक टेक्नोलजी इन्नोवेशन्ज़ प्रैवट लिमिटेड
64	U01100KL2013PTC034250	मज़ारा इण्डिया प्रैवट लिमिटेड
65	U24230KL2009PTC024687	तकियाकन्स फारमा प्रैवट लिमिटेड
66	U22212KL2011PTC027867	विस मिडिया प्रैवट लिमिटेड
67	U72200KL1999PTC012947	सेन्ट्रोन इनफोटेक प्रैवट लिमिटेड
68	U72200KL2004PTC017631	आरजेन्ट डिवलेपमेन्ट प्रैवट लिमिटेड
69	U72200KL2013PTC034809	वनमोबियस टेकसोलुशन्ज़ प्रैवट लिमिटेड
70	U51909KL2003PTC016685	ग्रुप 3 ट्रेडिंग प्रैवट लिमिटेड
71	U63040KL2007PTC021108	एको मलबार टूरिसम प्रैवट लिमिटेड

क्रम सं.	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
72	U63040KL2014PTC037530	निरवाना लिशर प्रैवट लिमिटेड
73	U45200KL2013PTC033852	आरडिवि प्रोजेक्टस प्रैवट लिमिटेड
74	U74140KL2008PTC023494	विंगो एन्टरप्राइस प्रैवट लिमिटेड
75	U63020KL2008PTC022426	सि ब्रिस लोजिसिस्टिक्स प्रैवट लिमिटेड
76	U51909KL2008PTC022689	एजि नानोटेक इम्पेक्स इण्डिया प्रैवट लिमिटेड
77	U01119KL2005PTC018108	नेडुकनडम प्लानटेशन एण्ड रिसोर्ट्स प्रैवट लिमिटेड
78	U45203KL2008PTC021844	ब्लूस्कै इनफ्रस्ट्राक्चर प्रैवट लिमिटेड
79	U74140KL2008PTC022640	स्वजित वेलत मानेजमेन्ट सर्वीस प्रैवट लिमिटेड
80	U29220KL2012PTC032394	ओरबिट ओटोमेशन एण्ड मेकाट्रॉनिक्स सोल्यूशन्स प्रैवट लिमिटेड
81	U45201KL2012PTC031674	सेलिब्रिटी सिनियर कासिल प्रैवट लिमिटेड
82	U45303KL2000PTC013856	पवरइरक्ट इलैक्ट्रिकल एण्ड स्ट्रक्चरल प्रैवट लिमिटेड
83	U27100KL2009PTC025196	सोलटान मेटलस & अलोयस प्रैवट लिमिटेड
84	U32102KL1979PTC003120	पि इ एफ कपासिटर प्रैवट लिमिटेड
85	U55101KL2013PTC035117	एलेटारिया रिसोर्ट्स एण्ड होलिडेस प्रैवट लिमिटेड
86	U74999KL2014PTC035970	चोयिस मेटलकोट्स प्रैवट लिमिटेड
87	U67190KL2007PTC020513	एबि डेब्ट मानेजमेन्ट प्रैवट लिमिटेड
88	U72200KL2008PTC022419	सेलसडन इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स प्रैवट लिमिटेड
89	U70100KL2010PTC026070	उगिल बिलडर्ज & प्रोपर्टिस प्रैवट लिमिटेड

ए सेहर पोन्नराज
कंपनी पंजीयक
केरल

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 2nd February 2016

No. F.20/2016/SCA(1)—S/Shri Surander Kumar Saneja and Virender Prasad Kandwal, Branch Officers/Court Masters (Non-Shorthand) have retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of January 31, 2016 on their attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

The 4th February 2016

No. F.20/2016/SCA(1)—Ms. Munni Devi Pandey, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of January 31, 2016 on her attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 5th February 2016

No. O.II-7473/2016-Pers.DA.4—Consequent on acceptance of his notice of voluntary retirement from Government Service by the competent authority, Shri Vimal Chand, Dy. Commandant (IRLA7473) of 97 Bn, Avadi (Tamilnadu) has relinquished his post on 31.01.2016 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 31.01.2016 (AN).

A. V. CHAUHAN
DIG (Pers) Dte

The 8th February 2016

No. R. II.1/2016-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Ajeet Kumar Diwakar, selected candidate of MOSB-2014, as Specialist Medical Officer (Ophthalmology)/(Deputy Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/- in temporary capacity wef 07.07.2015 (FN) until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

A. V. CHAUHAN
DIG (Pers)

No. R.II.1/2016-Pers(MOs)— The President is pleased to appoint following Doctors selected from MOSB–2014, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the date as shown against their names till further orders :—

SL. No.	NAME OF GDMO & IRLA NO.	DATE OF JOINING GOVT SERVICE	PRESENT POSTING
1.	Dr. Lakshmi Darla, [10589]	18/06/15(FN)	CH Bangalore
2.	Dr. Anil Kumar Sriramoju, [10591]	20/06/15(FN)	208 CoBRA
3.	Dr. Archana Reddy Purumandla, [10585]	27/06/15(FN)	GC Amethi
4.	Dr. Satyaki Mondal, [10586]	30/06/15(AN)	169 Bn
5.	Dr. Debasish Basunia, [10587]	01/07/15(AN)	207 CoBRA
6.	Dr. Shashank Mishra, [10616]	04/07/15(FN)	221 Bn
7.	Dr. Sanjeev Kumar Choudhary, [10611]	06/07/15(FN)	205 CoBRA
8.	Dr. Vijay Abhikya Dasi, [10598]	06/07/15(FN)	129 Bn

SL. No.	NAME OF GDMO & IRLA NO.	DATE OF JOINING GOVT SERVICE	PRESENT POSTING
9.	Dr. Venkata Avinash K., [10596]	06/07/15(FN)	231 Bn
10.	Dr. Venkata Kiran S., [10595]	06/07/15(FN)	201 CoBRA
11.	Dr. Regalagadda Adinarayana, [10603]	06/07/15(FN)	30 Bn
12.	Dr. Mohanraju Pinneboyana, [10610]	06/07/15(FN)	GC.II Ajmer
13.	Dr. Indira Pinneboyana, [10606]	06/07/15(FN)	CH Hyderabad
14.	Dr. Kuruva Manasa, [10607]	06/07/15(FN)	CH Hyderabad
15.	Dr. Edara Greeshma Tejaswi, [10609]	07/07/15(FN)	232 Bn
16.	Dr. Monisha M., [10618]	08/07/15(FN)	71 Bn
17.	Dr. D. Naga Malleswara Rao S., [10620]	08/07/15(FN)	51 Bn
18.	Dr. Muthyam Sampath Kumar, [10619]	08/07/15(FN)	121 Bn
19.	Dr. Ram Krishna Mishra, [10602]	08/07/15(FN)	GC Raipur
20.	Dr. M. Uday Kumar, [10608]	08/07/15(FN)	171 Bn
21.	Dr. Rathore Suresha Bhiku, [10592]	09/07/15(FN)	01 Bn
22.	Dr. Bhosale Chetan Kumar Atmaram, [10594]	09/07/15(FN)	126 Bn
23.	Dr. Vijay Prashanth Rao G., [10599]	09/07/15(FN)	147 Bn
24.	Dr. Subhash Kumar Suman, [10614]	09/07/15(FN)	209 CoBRA
25.	Dr. Jaganmohanrao Boddepalli, [10604]	10/07/15(FN)	230 Bn
26.	Dr. Surendar Palakuri, [10600]	10/07/15(FN)	149 Bn
27.	Dr. Vaddiparti V.S. Chaitanya, [10605]	10/07/15(FN)	227 Bn
28.	Dr. M.V. Chary, [10712]	31/08/15(FN)	174 Bn

A.V. CHAUHAN
Dy. Inspector General (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 10th February 2016

No. E-33013(1)/Tech Resig-3/PS/2015/Pers.I/84—Consequent upon appointment of Shri Pradeep Singh, Dy. Comdt./LR of CISF Unit NTPC Dibiyapur for the post of Dy. Supdt. of Police in Uttar Pradesh Police on the basis of Uttar Pradesh Public Service Commission Examination 2014, the President is pleased to accept his technical resignation from CISF service with effect from 06.02.2016 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/IB/68(1)/2014/Pers.II/160—Consequent upon appointment to the post of Deputy Central Intelligence Officer/Exe (DCIO) in Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, on deputation basis for a period of three years, the

following Assistant Commandant/Exe has relinquished the charge of the post of Assistant Commandant from CISF and assumed the charge of the post at Intelligence Bureau with effect from the date as mentioned below:—

Name of the Officer/Rank (Shri)	Date of charge relinquishment /Unit	Date of assumption of charge in IB & Rank
Arun Kumar Sharma Asst.Comdt /Exe	20.11.15 (AN) CISF unit P&HCS Chandigarh	07.12.2015 (FN) Deputy Central Intelligence Officer/Exe at SIB Jammu.

Sd/- ILLEGIBLE
DIRECTOR GENERAL/CISF

No. E-16013/RRB-ADG/2015/Pers.II/168—Consequent upon appointment on deputation basis as Director General in Narcotics Control Bureau (NCB) in the pay scale of Rs. 67,000-79,000/-(HAG), Shri Rajiv Rai Bhatnagar, IPS (UP:83) relinquished the charge of the post of Additional Director General (HQrs), Central Industrial Security Force, New Delhi in the forenoon of 10.02.2016.

Sd/- ILLEGIBLE
DIRECTOR GENERAL/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT) RAJASTHAN

Jaipur, the 12th February 2016

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/122/2014/D-554—The following Group 'B' Gazetted Officer retired from Government Service from the date shown against his name :—

	S/Shri	
1.	Suresh Chand Sharma-II Senior Audit Officer	Retired on superannuation wef. 31.01.2016 (AN)
2.	Jethu Singh Bhati Senior Audit Officer	Retired on superannuation wef. 31.01.2016 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 10th February 2016

No. OE/E&C/EIV/P/15-16—

Name	Designation	Date of retirement
Smt. Sobha K M	Accounts Officer, Branch Office, Thrissur.	31.01.2016 (AN) (Superannuation)

Sd/-ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 10th February 2016

No. PD/33(1)/2014-R-V/1762— The President is pleased to appoint the undermentioned Technical Officers Grade 'B' pay band of ₹ 9300-34800 + Grade pay ₹ 4800/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade 'C'

in the pay band PB-3 of ₹ 15600-39100 + Grade pay ₹ 5400/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2015, in an officiating capacity until further orders:—

Sl.No	Name of the official (Dr/Shri/Smt./Kum.)
(1)	(2)
1	NANDAN KUMAR
2	K.K. GOUR
3	JITENDRA KUMAR
4	DUBLA RAJENDRA
5	S. P. LOHAR
6	MADHAVI A CHAVHAN
7	PALLAVI KHANDARE
8	RAMLINGAM K.

M. V. SREEDHARAN
Deputy Establishment Officer

CORRIGENDA

No. PD/7(23)/2015-R-IV/SO(F)/22374—Reference Memorandum No. PD/7(23)/2015-R-IV/(SO/F)/14593 dated December 14, 2015. The name of Shri Pillai G. Rajasekharan shown at Sr. No. 81 of the above mentioned Notification may be corrected to read as “Pillai G. Rajasekharan” instead of “Pillai G. Rajasekharana”.

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(22)/2015-R-IV/SO/G/22375—Reference Notification No. PD/7(22)/2015-R-IV/SO/G/151 dated January 05, 2016. The Employee Number of Shri Vikas Jain shown at Sr. No. 67 of the above mentioned Gazette Notification may be corrected to read as “19538” instead of “19610”.

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

Mumbai-85, the 11th February 2016

No. PD/4(6)/2007-R-III(Vol.II)/2016/1811—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Mangala R. Pillai, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 21.12.2015 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III(Vol.II)/2016/1812—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Leela Mohanan, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 01.01.2016 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III(Vol.II)/2016/1813—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Sudha B. Udyavara, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 18.12.2015 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III(Vol.II)/2016/1814—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Rajendra Sidram Halipyati, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 18.12.2015 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 11th February 2016

No. 26/1/2015-CCS/2013—The President is pleased to appoint Shri Alle Krishna, Senior Accounts Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 5,400/-) to the grade of Deputy Controller of Accounts (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 6,600/-), in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad w.e.f. 02.12.2015 (F.N.)

A. SUKUMARAN
Under Secretary

Navi Mumbai-400703, the 9th February 2016

No. BRIT/Gen/9/43/2013/57—Chief Executive, Board of Radiation & Isotope Technology appoints Smt. Athena Koodathilmeperath Jose, Assistant (Pay Band Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/-) to officiate as Assistant Personnel Officer on an ad-hoc basis in this Unit from 02.12.2015 (FN) to 15.01.2016 (AN), in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-

P. RAMAKRISHNAN
Chief Administrative Officer

Mumbai-400001, the 15th February 2016

No. 9/1/2015-Power/15099—The President is pleased to appoint the following Scientific Officer / Engineer of this Department who is on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned and as detailed below in an officiating capacity w.e.f. 01.07.2015, until further orders.

Name (S/Shri)	Present Grade	Promoted to Grade	Pay band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	Unit
Abdul Hannan	Scientific Officer / Engineer - E	Scientific Officer / Engineer-F	PB-4 37400-67000	8700	NPCIL/HQ

2. The above officer relinquished charge of the lower post held by him w.e.f. 01.07.2015 (FN).

A. SUKUMARAN
Under Secretary

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 5th February 2016

No. HWB/R/1(8)-Talcher/2016/704—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Niteen Shende, Assistant (Pay Band-2 ₹ 9300-34800 + Grade Pay of ₹ 4600), BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 4800/- in Heavy Water Plant (Talcher) from the forenoon of 10th December, 2015 until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

No. HWB/R/1(8)-Kota/2016/720—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Hemangi Avinash Singh, Assistant (Pay Band-2 ₹ 9300-34800 + Grade Pay of ₹ 4600), NRB, Tarapur to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 4800/- in Heavy Water Plant (Kota) from the forenoon of 29th December, 2015 until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

No. HWB/R/1(16)-C.O./2016/725—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Kum. Swati P. Mestry, Assistant Accountant (Pay Band-2 ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 4600/-) BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 4800/- in Heavy Water Board, Mumbai from the forenoon of 21st January, 2016 until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi-110003, the 3rd February 2016

No. A-32013/11/2014-E.II—On the basis of recommendations of Union Public Service Commission and consequent upon their promotion to the post of Director of Airworthiness, the President is pleased to appoint the following Deputy Directors of Airworthiness to the post of Director of Airworthiness in PB-4, Rs. 37400 - 67000 with Grade Pay of Rs. 8700/- on regular basis in Directorate General of Civil Aviation with effect from the date mentioned against their names and until further orders:-

Sl. No.	Name of the Officers (S/Sh.)	Date of Promotion
1	J. C. Sharma	03.11.2015 (FN)
2	P. Pathmanathan	03.11.2015 (FN)
3	Pawan Kumar	03.11.2015 (FN)
4	Laxmi Narayan	04.11.2015 (AN)
5	K. K. Majumdar	18.01.2016 (FN)
6	Tuhinanshu Sharma	03.11.2015 (FN)
7	P. K. Bhakta	03.11.2015 (AN)

GOPAL SINGH
Deputy Director of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of Companies Act 1956 and of the following companies

Kanpur-208001, the 9th February 2016

No.LC/560(3)/583—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date of this notice the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	P.K. BAJAJ ENTERPRISES (VARANASI) PRIVATE LIMITED	U70109UP1998PTC023737	C67463224
2	BRUJJ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055181	C72278138
3	SHRI BAGLAMUKHI INFRADEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC055525	C73740854

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
4	PRABHU KRIPA COMMODITIES AND DERIVATIVES PRIVATE LIMITED	U74992UP2008PTC034626	C73825408
5	CJ ONLINE AD WORLD PRIVATE LIMITED	U72300UP2015PTC068489	C73826331
6	JASS MEDIA VENTURES PRIVATE LIMITED	U22300UP2014PTC063102	C73827214
7	ARADHYA INFRAHOMES PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC058123	C73863045
8	PALAK INFORMATICS SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300UP2014PTC065956	C73968190
9	TSMV SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC058760	C73973711
10	AMN BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC051562	C73958555
11	GRAND PEAK FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U15122UP2013PTC058067	C74014309
12	PRIMERA FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U15122UP2013PTC058068	C74011123
13	ENTHRON SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC038495	C74013996
14	AMA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120UP1993PTC015550	C74017252
15	ADHIRAJ DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056264	C74178245
16	ADHIRANSHU DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056300	C74213612
17	ACHALPATI DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056200	C74216391
18	AATAMGOSH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055283	C74231655
19	AALEKH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055064	C74233974
20	TRS REAL ESTATE INDIA LIMITED	U45400UP2010PLC039578	C74237728
21	ACHAR DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056202	C74228628
22	AASHARYALAYA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055556	C74248097
23	ABODH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056193	C74214578
24	AAHLAD DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC054625	C74215203
25	AMALESH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056356	C74227893
26	GOLDEN FLIGHT SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U52100UP2011PTC047975	C74331844
27	ACHIR DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056203	C74332362
28	ACHINTYA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056201	C74332818
29	AASHMAN DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056009	C74336447
30	ABHINAY DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056012	C74339433

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
31	GINTAAS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP2002PTC026920	C74303827
32	VEDAS SUGAR MILLS PRIVATE LIMITED	U15424UP1996PTC019721	C74359373
33	ABHEEK DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055853	C74368440
34	ABHINIVESH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056016	C74369372
35	AAKASHDIYA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055075	C74419763
36	AALAP DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055059	C74422775
37	E-APPLICATIONS PRIVATE LIMITED	U25206UP1989PTC010709	C74430687
38	ACGYUTA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056199	C74455395
39	SUJAL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U70100UP2013PTC061259	C74461898
40	ADVIK TRADELINK PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049676	C74476730
41	IPCI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24233UP2011PTC045179	C74491747
42	TAS INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45202UP2013PTC060704	C74608241
43	SKYWAY DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC059356	C74677634
44	KANODIA SHARE AND SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120UP2000PTC025401	C74679283
45	SWADESHI EDIBLE OILS PRIVATE LIMITED	U15419UP2006PTC031644	C74791971
46	SHREE AMPLEUNIMAX MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900UP2013PTC061282	C74561952
47	YOU & HOME TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17291UP2011PTC047989	C74852666
48	RADHA MOHAN BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046829	C74900432
49	KAMPFOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC055795	C74909441
50	AKSHARDHYAAN DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056402	C74917824
51	AALIM DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055061	C74917394
52	AAKASHDEEP DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC054636	C74927377
53	AARADHAYA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055062	C74941840
54	NIRMAL FINSEC CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67190UP2012PTC050310	C74775354
55	AARYA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055057	C74923541
56	NATURE LIFE INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062047	C75047944

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
57	NATURE LIFE INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062036	C75048652
58	NATURE LIFE INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062037	C75048777
59	NATURE LIFE INFRA VISION PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062038	C75048850
60	RADDLE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP2012PTC061382	C75072413
61	SHAKTI EDUCATIONAL TRAINING MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED	U74999UP2011PTC046542	C75100834
62	REVERIE CREATION MEDIA & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC040444	C75129015
63	PHARMABYTE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2014PTC061695	C75120170
64	BHAGIRATHI AUTO ENGG WORKS PRIVATE LIMITED	U51109UP1982PTC005897	C75159822
65	SANCH MANPOWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC045129	C75205294
66	SACRED DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC045635	C75289124
67	JASWIK FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PTC040576	C75230698
68	NIDHIVAN INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U70102UP2009PTC039084	C75361410
69	DHANAND FOODS PRIVATE LIMITED	U15400UP2014PTC061875	C75459636
70	FIRST DOMINION PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC052029	C75471292
71	RON KEVIN POWER PRIVATE LIMITED	U52100UP2013PTC055052	C75477620
72	CHANGE LIFE REAL ESTATE & MARKETING PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC048158	C75494260
73	REMIND TRAINING AND CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120UP2010PTC042788	C75533638
74	ABHYAS DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056019	C75556209
75	AASHISHWARDHAN DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055557	C75557074
76	ABHINANDAN DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055949	C75558742
77	ABHYUDAYAVAN DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056029	C75559237
78	AADINATH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC054583	C75560193
79	ABHOO DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056017	C75563759
80	ABHIVEG DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055988	C75564559
81	ABBAS DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055195	C75581918

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
82	RISKRIT FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67190UP2011PTC043851	C75586412
83	AALAM DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055060	C75587865
84	TECHVISION SOFTWARES PRIVATE LIMITED	U72300UP2009PTC039019	C75719336
85	IDEALTEAM BUSINESS SOFTWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72900UP2014PTC064500	C75707752
86	AVADH INFRACITY PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC056385	C75787242
87	KONSTABUILD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC058128	C75823450
88	RIMA EXPORTS PVT. LTD.	U19201UP1986PTC007888	C75842138
89	M.S.V PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24100UP2014PTC062710	C75893982
90	M SQUARE COLONISERS PRIVATE LIMITED	U45202UP2013PTC060717	C75907733
91	TES INFRA PRIVATE LIMITED	U45202UP2013PTC060832	C75919613
92	REGENT INFRACONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055793	C75947440
93	VISHAL IDENTITY AND CONSUMER AWARENESS CARD PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC038715	C75966564
94	THINKR J IT SYS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC059320	C75999243
95	KHUSHBOO INVESTMENT AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67120UP1993PTC015702	C76205251
96	OZONE AIR-ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29253UP2014PTC065294	C76263474
97	SAVITRISHREE BIO ORGANICS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056704	C76314897
98	CLARUS TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC058886	C76326297
99	SHUBHAM KRAFT PRIVATE LIMITED	U27109UP2007PTC032930	C76407584
100	DGN INVESTORS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049723	C76562800
101	SHAHAJ INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400UP2014PTC066318	C76563774
102	PROMETHEAN e-SOLUTION PRIVATE LIMITED	U52100UP2010PTC041588	C76576172
103	AADISH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC054612	C76674969
104	ACHYUTANANDA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056228	C76676162
105	ACHYUTAYA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056254	C76680313
106	ABHAYMUKT DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056105	C76687524
107	ABHINAV DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055957	C76688654

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
108	AJAYGATHA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056435	C76690577
109	AJAYDWAIT DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056389	C76696871
110	AARPIT DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055067	C76699636
111	ABHAYDAN DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056106	C76694074
112	AYUSH LEISURE & HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101UP2009PTC036994	C76697580
113	ALAMGIR DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056437	C76717685
114	STARLINE COLONIZERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058415	C39735865
115	STARLINE INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058537	C39739859
116	ABHISHU DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055985	C76706910
117	ABHISTA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056001	C76728351
118	AASHU DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055883	C76730191
119	AASHUTOSH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055658	C76730506
120	ABHIDAN DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056403	C76772805
121	ABHITAP DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056002	C76774595
122	HIMALAYA NATURAL AGRI BIOCHEM INDIA LIMITED	U24233UP2012PLC049927	C76845163
123	THREE ACES MARKETING PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC059663	C76564558
124	RALLYMARK DOC SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC053012	C75792846

PUNEET KUMAR DUGGAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

Jaipur-302001, the 5th February 2016

No. ROC/JPR/560(5)/538—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :

S. No.	Company No.	Company Name
01	034207	AGRAGAMINE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
02	037588	Maa Pitambra Buildhome Private Limited
03	037906	Shanti Nath Granites Private Limited

04	031853	NEAT TRADELINK PRIVATE LIMITED
05	029454	SOAR TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED
06	034745	NETWORKERS IT SERVICES PRIVATE LIMITED
07	027894	SPRINGVALLEY REALMART PRIVATE LIMITED
08	046393	APN INDUSTRIAL MINERALS PRIVATE LIMITED
09	037331	MANGO HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
10	036152	AMPLE INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
11	019450	CYNOSURE INFOCOM PRIVATE LIMITED
12	011602	CENTURY PROJECTS INDIA PVT LTD
13	030740	LCI EDUCATIONAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
14	035841	BRONZE BUSHINGS PRIVATE LIMITED
15	037636	SPECTRUM VETERINARY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	026972	OCTANET SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
17	033742	SHREE SURIYA REALHOME PRIVATE LIMITED
18	043497	MARWARI INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
19	030688	MAA KAILA DEVI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
20	021098	COSMOPOLITAN HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
21	014285	SHREE RAM SPUNTEX PRIVATE LIMITED
22	040599	SrApps Consultancy Services Private Limited
23	045938	NEXOVE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	029655	ETHOS (INDIA) FOODS PRIVATE LIMITED
25	015275	AZURE IMPEX PRIVATE LIMITED
26	002556	VANILLA EXHIBITORS PRIVATE LIMITED
27	024695	SUPREME GARTEX ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
28	028905	ROYAL LANDSCAPERS PRIVATE LIMITED
29	038815	SHIVAYA MINE AND MINERALS PRIVATE LIMITED
30	025563	ORBIT STARCONSULTANTS PRIVATE LIMITED
31	042949	ANUTHI CRAFTS PRIVATE LIMITED
32	035727	SEDALITE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
33	035329	AMEERA FARMS PRIVATE LIMITED
34	043487	UNITE SUPPORT PRIVATE LIMITED
35	038351	SHRI HARIKRIPA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
36	044482	NIRMAL DIAMONDS PRIVATE LIMITED
37	043194	PROPER PEST CONTROL PRIVATE LIMITED
38	033243	VALLEYVIEW HILL RESORT PRIVATE LIMITED
39	034421	SETH SULZCON PRIVATE LIMITED
40	031235	JANSAHYOG MARKETING PRIVATE LIMITED
41	013480	ONYX MARBLES PRIVATE LIMITED
42	028112	METRO MOSAIC PRIVATE LIMITED
43	035952	Oscar Minchem Private Limited

44	035953	Vibrant Overseas Private Limited
45	029396	BLITZ COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
46	013173	DOONDAR MARKETING PRIVATE LIMITED
47	039738	PVRM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
48	018345	DAULAT COLONISERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
49	038993	FARSOIA AND COLLADO INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
50	035717	JINDAL HOMEMART PRIVATE LIMITED
51	030663	SANDUNES HOTELS PRIVATE LIMITED
52	034170	VIRASAT JOURNEYS PRIVATE LIMITED
53	027624	SHANTI MOTHER AND CHILD HOSPITAL PRIVATE LIMITED
54	035378	SHRINATH MULTIMART PRIVATE LIMITED
55	024059	DASH MEDIVENTURES PRIVATE LIMITED
56	014468	SHRI DHANDHARI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
57	026243	CELINE JAIPUR TRADE PRIVATE LIMITED
58	042220	CROWN APPARELS PRIVATE LIMITED
59	033248	MAJESTIC PRIME HOMES PRIVATE LIMITED
60	037023	GENUS BUILDTECH PRIVATE LIMITED
61	024543	RIGHTWAY FOODS PRIVATE LIMITED
62	046700	BRICK WALL CONSULTING PRIVATE LIMITED
63	046011	Nirmal Tradex Limited
64	027245	MONSTER STOCK DEAL PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Dy. Registrar of Companies
-cum- Dy. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

Mumbai-400002, the 9th February 2016

No. ROC/560/FTE, 2011/1697—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies have this day been struck off the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
1	GLOTECX MEDIEQUIP PRIVATE LIMITED	U51505MH2003PTC143632	B74668286
2	ACME TEXTILATIES PRIVATE LIMITED	U74999MH1963PTC012592	B77592616
3	JASMINE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45202MH1990PTC054981	B79548343
4	BREAKTHROUGH MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51900MH1991PTC063115	B87855631
5	GREENTOUCH LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U01117MH2008PTC180613	B88274121
6	JANUS INTERPAC PRIVATE LIMITED	U21020MH2008PTC180981	B92733765
7	AIPEX WORLDWIDE PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC224178	B98399033
8	ASHOK TOURS AND TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED	U63040MH2002PTC134504	B98679038

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
9	SANKALP WINERY PRIVATE LIMITED	U51228MH2008PTC178251	B98727522
10	B C KATHRANI INVESTMENTS&FINANCE PVT LTD	U65990MH1981PTC025173	C00319475
11	CELEBI MUMBAI CARGO TERMINAL MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2012FTC238884	C00541276
12	KDM RESIDENCY PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC207752	C00900258
13	REMINDO SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC160582	C01087022
14	TOPACK MARKETING PRIVATE LIMITED	U29198MH1985PTC035641	C01504224
15	PROCAM ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED	U29200MH1991PTC062394	C01504422
16	TOPACK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1997PTC106494	C01504513
17	K.G.N. HORTICULTURE FARMS PRIVATE LIMITED	U01403MH2010PTC210758	C01924661
18	NUR LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U35122MH2010PTC202187	C01927706
19	PRASHASTI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC152443	C01984327
20	FUELL CELL LUMIERES PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC206460	C04005377
21	CHOUDHARY INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC226909	C04579595
22	BIRLA INFRASOLUTIONS LIMITED	U45202MH2008PLC186677	C04625489
23	VARAD MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC175762	C05957196
24	REPIND TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U11100MH2009PTC197875	C06040125
25	LLOYDS EQUITIES AND DEBENTURES LIMITED	U67120MH1993PLC072127	C09596990
26	ELTECH INTERACTIVE 3D SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2011PTC214712	C09693482
27	ANSUYA PHARMA PRIVATE LIMITED	U85110MH1998PTC115160	C09705849
28	EDUCATION FACILITATION SERVICES P. LTD	U22300MH1991PTC060229	C09714270
29	DISTA INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65990MH1993PTC071282	C09737834
30	MANGNANI EXPORTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U51900MH1979PTC021871	C09746082
31	JS CNC MANUFACTURING PRIVATE LIMITED	U30005MH2013PTC244682	C09811621
32	MONARCH BUILDERS P LTD	U70100MH1989PTC052449	C09873167
33	DHIMAGMAN CARS PRIVATE LIMITED	U51502MH2006PTC166612	C09920125
34	GOODLIFE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2010PTC202123	C09921024
35	SAR INFOWAY LIMITED	U27200MH1992PLC067918	C09922410
36	HORMAZD HOTELS PRIVATE LIMITED	U55204MH2013PTC242203	C09979147
37	CRITICAM MEDICAL SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC234225	C10059764
38	B J MARKETING PRIVATE LIMITED	U21020MH1999PTC122939	C10192383
39	BEAUTY QUEEN (INDIA) PRIVATE LIMITED	U24246MH2006PTC164297	C10271344
40	FLEMINGO DUTY FREE SHOP DELHI PRIVATE LIMITED	U74999MH2006PTC163822	C10279685
41	ARDENT FOODS PRIVATE LIMITED	U55200MH2005PTC154218	C10402386

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
42	MONIDO INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	U29120MH1995PTC094306	C10465730
43	CARVING DREAMS DIGITALLY PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC176314	C10509578
44	VRISAN RAMA POWER INFRA ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74120MH2010PTC210022	C10513844
45	KALVIN PLASTICS PRIVATE LIMITED	U25209MH1989PTC053072	C10515013
46	SUMITO DYERS PRIVATE LIMITED	U17120MH1996PTC101599	C10517639
47	RIEMANN CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2011PTC225413	C10643492
48	MARTANDA FINLEASE PRIVATE LIMITED	U65923MH2004PTC090782	C10651792
49	NATUN FINLEASE PRIVATE LIMITED	U65920MH1995PTC087923	C10652303
50	R.A.Y CONCEPTS AND MANUFACTURING PRIVATE LIMITED	U74940MH2014PTC253110	C10743268
51	MAHALAXMI STARCHCHEM PRIVATE LIMITED	U24133MH2006PTC162479	C10764959
52	MATRU MANDIR AWAS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC198382	C10767549
53	SUNHILLS VINYLs PRIVATE LIMITED	U25203MH2011PTC217114	C10844223
54	SHREE OM NAMAH INFRASPACE PRIVATE LIMITED	U45202MH2013PTC242264	C10848372
55	FFREEDOM WORTH WEALTH SERVICES P. LTD	U74900MH2010PTC203009	C10900686
56	NIRVANA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC171832	C11020559
57	INDUSTRIAL COATINGS (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	U24220MH2005PTC155508	C11028677
58	NIKAASH INFRCON PVT.LTD	U45400MH2013PTC245457	C11087616
59	NISHIKA HOSPITALITY PVT.LTD	U55209MH2013PTC245504	C11088697
60	PURPLE MAKEOVER SALON PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC238349	C11095627
61	LEGAATO WELLNESS PRIVATE LIMITED	U93000MH2011PTC221310	C11100187
62	FP GURU PRIVATE LIMITED	U67190MH2011PTC213432	C11112398
63	GANPATI SALT PRIVATE LIMITED	U24100MH2010PTC208128	C11162823
64	VOLTE-FACE BRAND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC230146	C11163581
65	LMG PHARMA PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC213551	C11173549
66	GLARE ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29253MH2011PTC224927	C11198934
67	SIMONA CABLE NETWORK PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC227576	C11270287
68	DEORA ECO COMPANY HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U65923MH2011PTC216520	C11321510
69	DRUG PROCESS LICENSING AFFILIATES PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC227773	C11324779
70	LANVIN HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101MH2007PTC173751	C11349032
71	URVI NETWORKS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC169812	C11484557
72	B S HYDROCARBONS PRIVATE LIMITED	U51410MH2008PTC183775	C11545225
73	B L A CHHATTISGARH THERMAL POWER PRIVATE LIMITED	U40102MH2006PTC165429	C11579844
74	BEHAVIORAL SCIENCE CENTRE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74140MH1989PTC050225	C11649092

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
75	OCEANEX IMPORT & EXPORT INDIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC239609	C11754710
76	HETCHAR CONSULTING GROUP PVT LTD	U74140MH1987PTC042853	C11787538
77	BAZARGATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED.	U74990MH2008PTC188808	C11787850
78	APR DISTRIBUTION SERVICES PRIVATE LIMITED	U51909MH2008PTC178335	C11799798
79	COLUMBIA CONCRETE PRODUCTS P. LTD	U29253MH2013PTC246707	C11812039
80	INFRAGRUH REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC210179	C11909454
81	GK FINANCE & INVESTMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67190MH2008PTC177206	C11917994
82	AISHWARYA GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED	U40103MH2011PTC214587	C11946803
83	EUODOO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U27101MH2011PTC214863	C11962073
84	NANDI REINSURANCE BROKING & RISK MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U66020MH2009PTC193722	C12065751
85	NEFROMED DIALYSIS CENTERS PRIVATE LIMITED	U85191MH2010PTC206899	C12181269
86	CHARGEURS INTERLINING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U17120MH2004PTC149930	C12200051
87	PREMIER LINERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1966PTC013476	C12257960
88	RAGA REALTY PRIVATE LIMITED	U70101MH2006PTC165705	C12294294
89	BHARAT KOLKATA TERMINALS PRIVATE LIMITED	U61200MH2012FTC231371	C12346839
90	WHITE OCEAN DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC239173	C12347639
91	DIAMA DENTAL INSTRUMENT PRIVATE LIMITED	U99999MH2006PTC158791	C12421350
92	ACE FUND ADVISORS PRIVATE LIMITED	U65923MH2009PTC192509	C12447249
93	CHISTIYA LAUNDRY TRADING & SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC246103	C12500674
94	ART STACK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2011PTC217930	C12507117
95	REALISTA FERIAS PRIVATE LIMITED	U63090MH2012PTC234488	C12602280
96	ZION BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC219126	C12605119
97	SAMPATI4U SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140MH2013PTC248546	C12618757
98	JPR ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92100MH2008PTC187107	C12766655
99	SAN-RAM LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC233385	C12870739
100	KIRANDUL VIZAG PIPELINE PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC232877	C12926341
101	GURUSHREE KRUPA DENTAL CAREWORLD PRIVATE LIMITED	U93090MH2011PTC217061	C13043294
102	AARTI READYMADE AND UMBRELLA MANUFACTURING PRIVATE LIMITED	U40101MH1992PTC065233	C13162144
103	AJANTA CARRIERS PRIVATE LIMITED	U60222MH2013PTC244530	C13180575
104	SURJAGARH TRADING COMPANY P. LTD	U51909MH2013PTC239952	C13181755
105	AWL SHIPPING AND FORWARDING PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC243786	C13183058
106	RADHESH TEXTILE PROCESSORS PRIVATE LIMITED	U17120MH1988PTC050171	C13220652

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
107	UTTAM ENGINEERING CONSULTANCY PVT LTD	U28920MH1993PTC072834	C13232376
108	MUKAT FINANCE LIMITED	U65990MH1994PLC076438	C13285184
109	INTERACTIVE GAMES PRIVATE LIMITED	U72200MH2013PTC243218	C13357272
110	RESEARCH CENTRE FOR MICROWAVE TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U73100MH2011PTC218266	C13363460
111	KMACS EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80301MH2010PTC210958	C13470570
112	WALLTEX CREATIONS PRIVATE LIMITED	U45403MH2004PTC147702	C13693072
113	KSHITIJ HOLIDAYS RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101MH2009PTC195312	C13760335
114	PICTURESQUE HOLIDAYS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101MH2009PTC190244	C13772801
115	PKC TRADING & IMPEX PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC245442	C13783592
116	KNOWLEDGE ESTATES PRIVATE LIMITED	U45203MH2007PTC173837	C13842638
117	VIRAJ REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70200MH1999PTC123039	C13911904
118	VIRAJ LANDMARKS PRIVATE LIMITED	U45200MH1999PTC123031	C13917109
119	AAKAR SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U67100MH2009PTC196897	C13921986
120	GAP INVESTMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67100MH2009PTC197105	C13922299
121	VIRAJ RESIDENCIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1999PTC123035	C13944319
122	HITECH INSTRUMENTATION (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51500MH2000PTC124065	C13946694
123	VIRAJ STRUCTURES PRIVATE LIMITED	U70100MH1999PTC123040	C13948344
124	FINE PET & CAPS PRIVATE LIMITED	U25200MH2008PTC187822	C13980644
125	SUNRISE FREIGHT CONNECTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63040MH1998PTC113381	C14047484
126	SUKHANAND EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC118335	C14090278
127	RED PANDA CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2011PTC221965	C14110472
128	RAVES TRADERS AND MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED	U55101MH2009PTC195319	C14309710
129	SAMARPAN FOODS PRIVATE LIMITED	U15100MH1997PTC107101	C14315428
130	DATTATRAYA AGRO-TECH PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC172333	C14339592
131	TRADEPAQ TRM (INDIA) PRIVATE LIMITED	U67100MH2009PTC196315	C14341655
132	WORKOSAUR ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72400MH2010PTC200633	C14439012
133	SHRI SWAMI SAMARTH POWER AND INFRA PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC224921	C14445720
134	DOUBLE TAILS AGRI DEVELOPMENT AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	U55101MH2010PTC207264	C14465454
135	FIREWORKS AGRI DEVELOPMENT AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	U55101MH2010PTC207911	C14466981
136	LINDEN AGRI VENTURES AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	U55204MH2010PTC207720	C14468078
137	MUSK AGRI VENTURES AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	U55204MH2010PTC207721	C14470082

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
138	GUGGENHEIM PORTFOLIO MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U67190MH2011FTC224218	C14530091
139	ALUMILITE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1993PTC075865	C14603070
140	SEA LAND LEISURE INDIA PRIVATE LIMITED	U74210MH1999PTC118701	C14627459
141	ALEXANDER HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U55101MH2007PTC169897	C14756852
142	ALPHA LEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74110MH2007PTC169922	C14764674
143	ACCESS COURIERS PRIVATE LIMITED	U64120MH1988PTC049152	C14781314
144	HIGH SPIRITS AND FUELS PRIVATE LIMITED	U24233MH2007PTC168125	C14805253
145	ESAM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC233499	C14825434
146	COUTURIER WEARS PRIVATE LIMITED	U17120MH2013PTC247345	C14867360
147	CROCHET FABRIC PRIVATE LIMITED	U18204MH2013PTC246465	C14870034
148	GAIETY HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101MH2013PTC246462	C14870570
149	GLAMOUR GLASS PRIVATE LIMITED	U26100MH2013PTC246518	C14871040
150	MAGENTA COLOURS PRIVATE LIMITED	U24233MH2013PTC246262	C14871461
151	RECTUS COLOURS PRIVATE LIMITED	U24200MH2013PTC246906	C14871859
152	SUPREMO INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC246905	C14872170
153	DOLSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC163062	C14967962
154	FABSOLVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC163832	C14973382
155	FACILE MARKETING AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED	U74900MH2010PLC205598	C15023807
156	PPL IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC142566	C15035447
157	SEARACE SHIPPING PRIVATE LIMITED	U63090MH2005PTC155560	C15055981
158	AMRUTA SANJEEVANI MEDICAL CENTRE AND NURSING HOME PRIVATE LIMITED	U85110MH2003PTC143542	C15071574
159	SAI AADHAR DEVELOPERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC167869	C15175631
160	MIDAS TOUCH CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U67190MH2009PTC195296	C15182504
161	SHASHWAT CONNEXION PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC236402	C15184526
162	ADEPT APPLICATIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000MH2008PTC185681	C15205230
163	AZONE HUES PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC190777	C15296650
164	JOSHI HYDRO POWER LIMITED	U74999MH1998PLC114713	C15328909
165	GARIMA LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63012MH2011PTC214988	C15335482
166	ADRIATIC OCEAN SHIPPING PRIVATE LIMITED	U35110MH2007PTC175779	C15380025
167	CHAMPAGNE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC221682	C15384704
168	DNUO SANGAM ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92110MH2004PTC145748	C15395890
169	SAMARJIT LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC202271	C15407158

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
170	CITILIGHTS ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC149024	C15411010
171	KARANRAJ DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC158906	C15421225
172	ABHI SALES AGENCY PRIVATE LIMITED	U51909MH2007PTC171421	C15469786
173	ANSA SALES AGENCY PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC171217	C15470594
174	DREAM MERCHANTS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2007PTC169834	C15503022
175	TEFSI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2013PTC243832	C15546336
176	GODA HEART CENTRE PRIVATE LIMITED	U85100MH2008PTC177654	C15555055
177	SOURCENOVA MARKETING PRIVATE LIMITED	U51101MH2011PTC221867	C15566466
178	AMBAWALE FILMS PRIVATE LIMITED	U92120MH2007PTC172770	C15580343
179	RTSTAR SOLITAIRE GEMS PRIVATE LIMITED	U37100MH2010PTC204470	C15582315
180	DEEJAY FINANCIAL AND MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD	U74140MH1986PTC040683	C15604119
181	PLACER CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC176975	C15758758
182	WELDON WELDING PRIVATE LIMITED	U27310MH2008PTC181077	C15801897
183	KARDS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC224295	C15812779
184	DAR EXIM PRIVATE LIMITED	U51109MH2011PTC224442	C15815962
185	TEKNO STORES PRIVATE LIMITED	U28931MH2010PTC202202	C15854268
186	270 ENGAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC226743	C15867187
187	OPEC SHARE AND STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED	U67190MH2000PTC124517	C15895840
188	RIVOLI RETAIL PRIVATE LIMITED	U52209MH2007PTC171948	C15967433
189	HI SKILL AEROSPACE PRIVATE LIMITED	U35303MH2006PTC164507	C15970049
190	MNS SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U51909MH2000PTC128516	C15992837
191	KKC INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U60222MH2005PTC158258	C16111726
192	SHREE SAMARPAN PULP AND PAPER PRIVATE LIMITED	U21020MH2010PTC210806	C16117418
193	MAGNUM LPG BOTTLING PRIVATE LIMITED	U11100MH2011PTC220344	C16157687
194	NEELPADAM TRADING AND INVESTMENT PVT.LTD.	U51900MH1993PTC070553	C16270142
195	HERITAGE MINING COMPANY PRIVATE LIMITED	U74999MH1993PTC070833	C16318529
196	NIRANJAN HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U65100MH2009PTC191402	C16354904
197	H. V. PAPERS PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC234213	C16412082
198	VANI ARTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2010PTC209193	C16434771
199	RAHUL INFRABUILD LIMITED	U70109MH2010PLC210597	C16488488
200	GREEN BIRD REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70109MH2008PTC183484	C16536898
201	SPP MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U63032MH2005PTC151826	C16538860
202	ABSEZ SOLUTIONS LIMITED	U72900MH2010PLC199516	C16572703
203	BIHM HOSPITALITY MANAGEMENT P. LTD	U55101MH2007PTC172669	C16615429
204	CAMLINK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1987PTC042943	C16635948

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
205	INCAP ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC235547	C16796302
206	CAROA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC206800	C16826570
207	SAINATH INFORMATICS PRIVATE LIMITED	U51909MH1997PTC110669	C16833857
208	MEETLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U31900MH2008PTC183179	C16930372
209	SMJ COMPUTERS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC170904	C16972655
210	FORBES SHIPPING & LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2013PTC242040	C16987174
211	COMBAT LAW PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	U22120MH2001PTC134316	C17036047
212	SEA FACE DEVELOPERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U70101MH2003PTC142839	C17090069
213	SIRR-TECH TECHNOLOGY PVT.LTD.	U32204MH2011PTC223244	C17129875
214	VM CAFE DE ART PRIVATE LIMITED	U55101MH2005PTC152711	C17206657
215	GAZELLE CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC236550	C17675265
216	MANAV GARMENTS PRIVATE LIMITED	U18101MH2008PTC186545	C17877127
217	NUCLEUS FARMS AND HATCHERIES PRIVATE LIMITED	U01139MH2006PTC166560	C17883356
218	CREATIVE ADVISERS WORLDWIDE PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC161984	C17934670
219	NUNOOK INTERACTIVE PRIVATE LIMITED	U92412MH2008PTC181352	C17958539
220	TOPROCK INDIA WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93090MH2010PTC198502	C18109843
221	SHAH VADODARIA INDUSTRIAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U74999MH1980PTC022992	C18371492
222	AKAR SHARE INTERMEDIATES P LTD	U65990MH1990PTC059528	C18601229
223	APEX FINE CHEM PRIVATE LIMITED	U24100MH2010PTC204917	C18626432
224	ELAN FINANCE AND LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED	U65920MH1996PTC099975	C18650911
225	ADN SONIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U29100MH2012PTC233868	C18651455
226	AJMERA FIRE SAFETY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74920MH2008PTC181562	C18653212
227	AJMERA TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U32204MH2008PTC181561	C18660142
228	GREEN NETWORK TECHNOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2013PTC243407	C18747659
229	CECOP INDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC215222	C18763763
230	UNISTAR EXIM PRIVATE LIMITED	U51909MH2007PTC170228	C18905711
231	GARODIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED	U70100MH1995PLC085960	C18906164
232	ACHIEVED PRINT PRIVATE LIMITED	U22219MH2008PTC185907	C18990671
233	SHARAVAN CARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000MH2010PTC204756	C19042183
234	ARS II REALCON INDIA PRIVATE LIMITED	U70102MH2013PTC247991	C19063023
235	ROYAL EUROPE TOUR PRIVATE LIMITED	U63090MH2011PTC212408	C19070101
236	PARMARTHI TRADERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U51430MH2005PTC152456	C19194166
237	ARCHID INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U51909MH2013PTC240294	C19245117
238	AL MANSOOR TRADING PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC195207	C19296425

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
239	GIRISONS TEXTILES PRIVATE LIMITED	U51311MH1996PTC099899	C19298744
240	AMITY MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92490MH2013PTC247214	C19331172
241	QUARTZ PLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U25194MH2013PTC247839	C19332196
242	PISTON AUTO COMPONENTS PRIVATE LIMITED	U34102MH2013PTC247639	C19332733
243	NOUVEAU TRADELINK PRIVATE LIMITED	U51101MH2013PTC247025	C19333087
244	FIRMAMENT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC247117	C19333533
245	RADIUM REALTORS P. LTD	U45203MH2013PTC247640	C19334218
246	EXPEDITIOUS TRANSPORTS PRIVATE LIMITED	U60231MH2013PTC246510	C19335694
247	PLATO ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC247850	C19336262
248	POINT BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2013PTC247171	C19336601
249	STEER BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC247829	C19337039
250	REALM BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45209MH2013PTC247849	C19337294
251	ELOQUENT EDUCATION ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80904MH2013PTC247123	C19337476
252	ZYLOG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC247115	C19338086
253	TINGE PAINTS PRIVATE LIMITED	U24299MH2013PTC247261	C19338573
254	SPUTNIK BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45201MH2013PTC247119	C19338938
255	JASPER COATED PAPERS PRIVATE LIMITED	U21023MH2013PTC247636	C19361757
256	INTERSQUARD SECURITY & PERSONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920MH2009PTC194780	C19420694
257	SHYAMBABA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC205844	C19424522
258	LOTUS DISTILLERIES PRIVATE LIMITED	U15532MH2008PTC188568	C19492297
259	LOTUS TELESERVICES PRIVATE LIMITED	U64201MH2008PTC187656	C19497221
260	NAGARJUN MEDICINES PRIVATE LIMITED	U24239MH1996PTC102095	C19525682
261	UUNII TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC170722	C19602275
262	FLEMINGO GOA RETAIL PRIVATE LIMITED	U52100MH2007PTC176164	C19676535
263	ALLIED LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U80903MH2008PTC188590	C19691617
264	GOLDLINE FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC101676	C19796259
265	BIOMILE MARKETING PRIVATE LIMITED	U24239MH1999PTC122812	C19826130
266	REVON TRADING PRIVATE LIMITED	U51311MH1996PTC101084	C19841113
267	INTEGRATED FASTENING TOOLS PRIVATE LIMITED	U29253MH2013PTC240048	C19866847
268	SVA SPAS M AND M PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC204940	C19896273
269	SWAN COURIERS AND CARGO PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC084284	C19912880
270	OUTILS MACHINE TOOLS PVT LTD	U67120MH1981PTC025272	C19981836
271	SOLRIO ESTATES PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC094849	C19999663
272	SHITAL RESORTS PVT LTD	U63018MH1991PTC063018	C20029765
273	TARGET MOTION DISPLAY PRIVATE LIMITED	U74300MH2006PTC163033	C20073078

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
274	TIME AND PEOPLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2005PTC154471	C20100244
275	UTKARSH MULTITRADE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	U51101MH2010PTC204968	C20125266
276	S.S. CASTERS PRIVATE LIMITED	U27310MH2006PTC161306	C20162731
277	MINT SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200MH1995PTC090659	C20208054
278	HORIZON EXPO PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC179878	C20209656
279	MIRACLE JEWELS PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC222431	C20214540
280	KALAPURNA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67110MH2009PTC191832	C20219804
281	YOGENDRA ARTS TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17120MH1993PTC072356	C20297172
282	SLYNQ INTERACTIVE PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC234653	C20312583
283	RTS FINANCE PRIVATE LIMITED	U65999MH2011PTC225070	C20318341
284	STARK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67190MH2004PTC145733	C20325163
285	MATRIX MARITIME PRIVATE LIMITED	U93030MH2012PTC233831	C20347795
286	STAR EVENTS PRIVATE LIMITED	U93000MH2009PTC189991	C20386777
287	ES-TECH TRG CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC198777	C20402285
288	OM SAI MANTRA POWER OF OCEANS PRIVATE LIMITED	U40300MH2012PTC230927	C20443966
289	GULMOHAR INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC176627	C20474136
290	VEEVA MOTORS PRIVATE LIMITED	U34200MH2008PTC179605	C20526919
291	DARYANANI ARCHITECTS AND CONSULTING SERVICES P. LTD	U74210MH1981PTC024257	C20605374
292	PREFERRED GLASS PRIVATE LIMITED	U26100MH2005PTC151853	C20637385
293	KINGSTON HIRE PURCHASE AND LEASING PRIVATE LIMITED	U65921MH1995PTC092168	C20637849
294	CHEETHA MOTION PICTUREHOUSE PRIVATE LIMITED	U92110MH2001PTC133226	C20786000
295	MEGATIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U72100MH2000PTC126398	C20788253
296	MOBILE CRUNCH PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC252335	C20832051
297	JMS EDUWORLD PRIVATE LIMITED	U80904MH2012PTC239068	C20851275
298	RYAN SEALS PRIVATE LIMITED	U29195MH2005PTC154043	C20888350
299	RISHIK MOTORS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U34300MH2005PTC152136	C20893723
300	AEC DESIGN INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC186903	C20913505
301	ST. ANGELOS AGRICUTURE AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U01403MH2010PTC200304	C20918264
302	SUSAAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC200786	C20920823
303	EVERGLOW BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC205085	C20927638
304	SMART'S BUILDING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC243560	C21105911
305	PUFF AND PLAY DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC253478	C21125042

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
306	BRAINOMAGIC EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED	U80900MH2010PTC200842	C21149737
307	LUCENT VENTURES PRIVATE LIMITED	U28112MH2010PTC206586	C21158308
308	EMPIRICAL OFFSHORE SERVICES PRIVATE LIMITED	U93090MH2011PTC214409	C21176391
309	ASHTAVINAYAK MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED	U92100MH2007PTC176560	C21220181
310	DOPPELGANGER HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U74999MH2010PTC200594	C21255575
311	DREAM FOILS PRIVATE LIMITED	U27203MH2008PTC183311	C21310958
312	ACUMEN EQUITY BROKING ADVISORY PRIVATE LIMITED	U67190MH2011PTC218689	C21347810
313	MAMTA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC222783	C21355607
314	LA LIFECARE PRIVATE LIMITED	U24100MH2009PTC192003	C21370168
315	THREE'S A CROWD ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92400MH2012PTC230634	C21474853
316	AEROCON RENT-A-CAR P. LTD	U63090MH2013PTC240792	C21528393
317	AJMERA INSURANCE BROKING LIMITED	U67200MH2008PLC183510	C21533005
318	PRIYAM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC199184	C21539838
319	SKY WARDS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH2011PTC215959	C21563242
320	ATMA FARMS PRIVATE LIMITED	U01403MH2008PTC177775	C21573787
321	VIWA GINNING PRIVATE LIMITED	U18101MH2010PTC211496	C21574256
322	SEALANDAIR LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63010MH1992PTC070011	C21586581
323	VIWA COTEX PRIVATE LIMITED	U18101MH2010PTC210536	C21634233
324	MEDITRANS INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC170167	C21643762
325	IDBI INFRAFIN LIMITED	U65923MH2012PLC227445	C21678248
326	UTSAV TECHNOENGG PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC224490	C21701230
327	JCA CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC178255	C21821848
328	CROSSLINE TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC204854	C21865472
329	HOMEYAAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC224459	C21938097
330	GVS PHARMA PRIVATE LIMITED	U24230MH2004PTC144417	C21939699
331	CHITALIA EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80301MH2001PTC130733	C21970181
332	KAPIL WIRES AND CABLES PRIVATE LIMITED	U31300MH1988PTC046252	C22002463
333	SOMMELIER'S VINEYARD PRIVATE LIMITED	U15520MH2007PTC174901	C22139158
334	JALARAM REALTORS PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC204983	C22147342
335	KUBERAI HOME PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC210219	C22147607
336	KUBERAI SHELTERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC208877	C22147714
337	ROCKFORD BIOTECH PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC239740	C22158349
338	SUMWIN FABRICS PRIVATE LIMITED	U17120MH2000PTC126910	C22192470
339	PARINITA REALTORS & FINANCIAL SERVICES LIMITED	U45200MH2008PLC179137	C22229488
340	BRIGHT IDEA REALITY MARKETING PRIVATE LIMITED	U70101MH2012PTC237890	C22239222

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
341	SILVERKRUST INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC212661	C22273114
342	PROPRIYTY CONSTRUCTIONS P. LTD	U70102MH2011PTC221286	C22436224
343	AVONEX POWER TOOLS INDIA P. LTD	U29199MH2006PTC164800	C22456008
344	E-SQUARE FUTURISTIC PRIVATE LIMITED	U72900MH2010PTC210976	C22513329
345	GUPTA SNACKS PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC223803	C22789382
346	YS POWER TOOLS PRIVATE LIMITED	U51101MH2013PTC242964	C22807069
347	POOJA MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15122MH2007PTC176110	C22847677
348	JSW ESTATES PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC231149	C23121569
349	TRICON ENERGY BPO PRIVATE LIMITED	U72300MH2011FTC215771	C23220965
350	FINEEWAVE TRADING COMPANY P. LTD	U51909MH2004PTC147658	C23283906
351	HYATT HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U65923MH2010PTC207170	C23565161
352	SGF STORE CONCEPT PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC206424	C23657703
353	ECOTRONIX ENERGY PRIVATE LIMITED	U40109MH2010PTC203816	C23667942
354	NEIL PROPERTY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U70100MH2011PTC212647	C23716517
355	NEIL REALTOR PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC213077	C23717499
356	UNNATI GEMS EXPORT PRIVATE LIMITED	U51398MH2004PTC145918	C23966617
357	WHITE GOLD FINANCIAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	U67190MH2007PTC173721	C24060352
358	TRISHA COTTON PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC220688	C24093601
359	PRATISHTHA INFOTECH PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC235925	C24160137
360	MILLENNIUM COATING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2001PTC131380	C24208829
361	ECO CONSULTANCY & PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U74990MH2008PTC188474	C24268609
362	ANUKRUTI DESIGNERS PRIVATE LIMITED	U74999MH1986PTC038996	C24271108
363	SHRI MUSICS MEDIA PRIVATE LIMITED	U92120MH2008PTC177796	C24281594
364	CMI INNOVATIVE LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2012PTC228503	C24307266
365	SUBTLE CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC207815	C24377046
366	SCITECH RESEARCH AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U73200MH2014PTC254793	C24487613
367	NOESIS CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC204991	C24508483
368	STRATEGIC BUSINESS ADVISORY INDIA PRIVATE LIMITED	U74140MH2000PTC127125	C24558132
369	BIOFIBRIN HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24230MH2000PTC127540	C24616385
370	V.S. MASURKAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U45201MH2001PTC133327	C24660524
371	ANUVAIBHAV BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163586	C24663544
372	ARCHIVISTA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45202MH2009PTC195742	C24684151
373	VRM INNOVENTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2003PTC140672	C24824534
374	INX EXECUTIVE SEARCH PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC190178	C24845331
375	INX SERVICES PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC191436	C24851511

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
376	AKASH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70100MH2007PTC170608	C24879843
377	MISTRY SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1993PTC071083	C24890444
378	BAM INDIA ADVISORY PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC169688	C24898439
379	BLACKROCK INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2006PTC162717	C24937740
380	MIRACLE WORKS MEDIA PRIVATE LIMITED	U92100MH2007PTC174262	C25013301
381	SHANI INFO-EDGE PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC201308	C25179938
382	ADVURB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC198607	C25192857
383	DM POLYPLAST PRIVATE LIMITED	U25203MH2013PTC243092	C25223926
384	VIKRAM CREATIONS N MORE PRIVATE LIMITED	U93030MH2012PTC229429	C25293861
385	CONSUMER CONNECT MARKETING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH2002PTC136211	C25314519
386	CSAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC181782	C25318163
387	KHYATI HOLDINGS & PROPERTIES LIMITED	U45202MH1994PLC081897	C25504218
388	TYRO CARBON RESOURCES PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC230351	C25634304
389	DEVASHISH INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC218476	C25703588
390	XL LONGEVITY APPARATUS PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC168050	C25719998
391	OIKOS EXPORTS PRIVATE LIMITED	U52190MH2010PTC210966	C25726449
392	AVIGHNA GREENS PRIVATE LIMITED	U01403MH2011PTC225313	C25753062
393	MEGASOFT CORE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC170134	C25794363
394	VEDICURE WELLNESS PRIVATE LIMITED	U85190MH2005PTC157753	C25828419
395	NITIN ESTATE LIVE-STOCK AND FARMS PRIVATE LIMITED	U01210MH1998PTC117423	C25883836
396	BUILDING HEALTHY FUTURES PRIVATE LIMITED	U85191MH2013PTC243952	C25950973
397	BRIG CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC170321	C26121814
398	MOBILESYSYSTEMS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2012PTC225823	C26194514
399	PACKBIZ PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC220480	C26229443
400	DD AND S OCONNORS PAINTS PRIVATE LIMITED	U26900MH2006PTC161039	C26293084
401	EDUBEST SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U93030MH2011PTC214321	C26539049
402	ROYAL KIDS EDUTAIN PRIVATE LIMITED	U80101MH2006PTC163063	C26737510
403	ALIX COMSI INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED	U51103MH2003PTC051287	C26744748
404	PRESIDE SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC235830	C26802504
405	PROLIFIC IRONS PRIVATE LIMITED	U29253MH2007PTC170109	C26803239
406	SECURE AND SAFE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74990MH2012PTC227263	C26818955
407	MADHU PRIME SPACE PRIVATE LIMITED	U70101MH2007PTC168653	C26820886
408	SADGURU EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC191668	C26824177
409	H.A. EXIM TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17291MH2013PTC240815	C26830364
410	SYNERGY PRINTING PRIVATE LIMITED	U22210MH2008PTC183918	C26859322

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
411	TRUPTI RESEARCH TRAINING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U73100MH2011PTC220849	C27002005
412	H D LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC218898	C27004993
413	BLISS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2005PTC151212	C27058361
414	STRATEGIC INDIA REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U70100MH2006PTC161029	C27070119
415	STRATEGIC TRUSTEE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65991MH2003PTC138620	C27071687
416	VITTISHCHAME SECURITIES PRIVATE LIMITED	U65999MH2010PTC199906	C27077809
417	SCOPEXIM HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U51101MH2011PTC225236	C27210186
418	MISE EN SCENE ENTERTAINMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U92110MH2004PTC148404	C27278654
419	TORQUE PROMOTION PRIVATE LIMITED	U72300MH2010PTC208224	C27323138
420	MATALAXMI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2004PTC150164	C27325042
421	HIMALAYA TRADERS AND AGENCIES PRIVATE LIMITED	U74990MH1996PTC096989	C27429281
422	GAJLAXMI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74100MH2005PTC151189	C27509207
423	RATNA PATHOLOGY LABORATORY (JALNA) PRIVATE LIMITED	U85195MH2002PTC136175	C27726983
424	SHIV-OM NAMKEEN AND FOODS DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U15400MH2009PTC192022	C27765510
425	ALFA SHARE TRADING PRIVATE LIMITED	U45200MH2003PTC142640	C27832294
426	ECOSAFE CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED	U63090MH1999PTC123233	C27905694
427	SANDEEP STEELS TRADING PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC242650	C28185775
428	CAM MARITIME CONSULTANTS P. LTD	U93000MH2011PTC218802	C28429132
429	KUNJAN SILKS PRIVATE LIMITED	U17120MH1991PTC061451	C28463859
430	DADABHAI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U63040MH1991PTC060608	C28498707
431	SNATCHKING ONLINE PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC166571	C28542215
432	NATURE WEALTH FOOD AND ENERGY PRIVATE LIMITED	U40106MH2008PTC187050	C28668010
433	VISHAL REAL ESTATE AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U70101MH2005PTC156241	C28676211
434	FEBC CONSTRUCTION MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U45200MH1996PTC097490	C28692887
435	SHREE GANGESHWAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC186962	C28776763
436	SUJATA SEMI CONDUCTORS PVT LTD	U32105MH2003PTC032500	C28885945
437	INVENGENE BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED	U73100MH2012PTC234798	C29047834
438	INPRO DIRECT MARKETING PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC211121	C29126042
439	PLUSMARK MULTIMARKETING PRIVATE LIMITED	U52100MH2009PTC195435	C29137825
440	MAYUR PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U51100MH1996PTC104745	C29267762
441	SHUBHAM WELLNESS PRIVATE LIMITED	U93090MH2011PTC216517	C29316254

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
442	METIS LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC219487	C29327665
443	3AM TEXTILE VENTURES PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC246612	C29421831
444	PALOMI EXPORTS PRIVATE LIMITED	U52590MH2010PTC204292	C29465697
445	HEALTHCARE EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51101MH2011PTC219670	C29467784
446	SUMUKH MANTEX INDUSTRIES PVT LTD	U51310MH1987PTC044354	C29585007
447	KOZAN TEXTILES PRIVATE LIMITED	U51311MH1999PTC119279	C29589660
448	MERISTEM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC245462	C29659463
449	SD MNORE & MININGS PRIVATE LIMITED	U14200MH2008PTC178670	C29666815
450	SATRAM ORE PRIVATE LIMITED	U13209MH2008PTC178382	C29668159
451	STALLION ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92190MH2008PTC184793	C29674694
452	UNIVERSAL POWER EXCHANGE P. LTD	U72900MH2008PTC179392	C29685674
453	UNIVERSAL CAPITAL HOUSE PRIVATE LIMITED	U67190MH2010PTC210127	C29687803
454	SONIDO AUDIO VISUALS INDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC227100	C29706538
455	SYNOPSIS INTELLECTS INDIA PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC235469	C29763851
456	IT PEOPLE BPO PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC185333	C29764545
457	RAHUL AGRO MARKETING PRIVATE LIMITED	U51200MH2005PTC155586	C29781234
458	ATTENTIVE LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC201154	C29802956
459	GRAND HARISON HOSPITALITY P. LTD	U55101MH2011PTC216531	C29857836
460	EURO INDIA TECHNOLOGY VENTURES PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC176469	C29875200
461	AKSTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2003PTC143225	C30095327
462	SHREE TIRUPATI STEEL TRADERS PRIVATE LIMITED	U27100MH1998PTC112916	C30099014
463	ZENITH FIRE PROTECTION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U29270MH1997PTC107824	C30174700
464	ATHAK PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC178399	C30339824
465	ENORMOUS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC175189	C30340384
466	STARSHINE WAREHOUSING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63023MH2008PTC184856	C30341531
467	STRENGTH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC170061	C30342489
468	ADVAITA FOODS PRIVATE LIMITED	U51220MH2005PTC153779	C30374946
469	SYMATIC INFOTECH PRIVATE LIMITED	U64200MH2000PTC127946	C30624837
470	SPOONBILL LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U18109MH2010PTC210970	C30706964
471	AMERIND CONSULTANTS PVT LTD	U74140MH1982PTC028000	C30796387
472	VAZIR MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH1988PTC046526	C30818108
473	MANISH TRANSMISSION PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U31100MH1974PTC017827	C30866636
474	NEER MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC229213	C30889547
475	BLUEQUEST VENTURES PRIVATE LIMITED	U01403MH2010PTC198489	C30932081
476	SNIGMAY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC186909	C30935324

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
477	SOLORBEAT ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U40300MH2011PTC222376	C30964043
478	ALTEL ALUMINUM & TELECOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U74999MH2009PTC196604	C30997811
479	EASTWIND GRANITES PRIVATE LIMITED	U14200MH2010PTC203770	C31001548
480	NAVKET MINES PRIVATE LIMITED	U14200MH2011PTC213674	C31014517
481	MVN SOLAR PRIVATE LIMITED	U40300MH2011PTC220216	C31020738
482	AIRFAST LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2005PTC153650	C31030570
483	DIA - EXIM MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC219542	C31042609
484	ADVANCED PROTOTYPING PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC175035	C31070147
485	BHAIRAVNATH HOSPITALS PRIVATE LIMITED	U85110MH2002PTC138281	C31090798
486	KS MANPOWER PLACEMENT & STAFFING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC217332	C31091655
487	PRISM MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2001PTC133504	C31093644
488	PERUMAL SHIPPING PRIVATE LIMITED	U63090MH2012PTC238383	C31180789
489	MINOO BILIMORIA TRADING PVT LTD	U51990MH1983PTC030504	C31264708
490	GAIA BIOPOLYMERS PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC185698	C31265184
491	STORE7 MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U52100MH2012PTC238078	C31271521
492	TZEE MOBILE VALUE ADDED SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC194485	C31318207
493	BLISS TRADING AND INVESTMENTS P. LTD	U51900MH1995PTC092215	C31329915
494	NOVACOM TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH2001PTC131509	C31422363
495	AVINASH LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U74990MH2008PTC189160	C31473200
496	BHAGYODAY CREATIONS PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC164980	C31480833
497	MINERVA SWITECHGERS AND CONTROLS PRIVATE LIMITED	U31902MH1996PTC097701	C31494636
498	PURPLE BERRY IMPORT EXPORT PRIVATE LIMITED	U01403MH2009PTC190438	C31495518
499	STUDD SAFETY PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U29253MH2012PTC228923	C31498470
500	SHWAS DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED	U85195MH2008PTC186593	C31575087
501	SHREE DURGA ULAVAN HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101MH2007PTC171762	C31581010
502	VAGAD METAL PRIVATE LIMITED	U27101MH2009PTC192621	C31687130
503	APPLE TREE IDEATAINMENT PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC184054	C31719826
504	NEXT LEVEL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC237048	C31721368
505	OSIAN'S REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC182457	C31722226
506	VINAYAK POWER LIMITED	U40109MH2009PLC196867	C31722689
507	NEXT DWELLINGS PRIVATE LIMITED	U45300MH2012PTC237034	C31798549
508	MORYA AUTO PRIVATE LIMITED	U34107MH2011PTC216200	C32008195
509	ADESHWAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2007PTC174063	C32101297
510	KUMUDINI CONSULTANTS PVT LTD	U74140MH1991PTC062016	C32129413

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
511	ANSA DISTRIBUTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1998PTC115848	C32134793
512	METSTAR ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29190MH2008PTC181292	C32197063
513	KIWI URBAN DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC177111	C32208589
514	TRIKAYA FARMS PRIVATE LIMITED.	U01407MH2008PTC182798	C32218646
515	VAIDYA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65993MH2004PTC147854	C32263683
516	AMARSWARUP STEEL COMPANY PRIVATE LIMITED	U28129MH2013PTC246811	C32266744
517	VISIONINSPIRE INFOVENTURES PRIVATE LIMITED	U55101MH2008PTC177401	C32271231
518	RAVISH LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U74990MH2008PTC189161	C32309346
519	AEXECUTIONERS INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U74210MH2008PTC179882	C32348245
520	AMTAVALI INNOVATORS AND TRADERS PRIVATE LIMITED	U17291MH2011PTC213552	C32391070
521	CKANCIL ENGINEERING PVT LTD	U34100MH1987PTC043866	C32542508
522	LA FULK SHIPPING & TRADING PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC199713	C32543118
523	AVESTHA CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC222187	C32605990
524	T K HEALTHCARE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U85190MH2003PTC139346	C32652976
525	RAJASTHAN COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U51219MH2006PTC163083	C32688723
526	GRAPHICS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC157889	C32694077
527	DINA CLOTHING COMPANY PRIVATE LIMITED	U17200MH2008PTC183140	C33106477
528	BNZ ADVENTURE SPORTS PRIVATE LIMITED	U92411MH2006PTC161241	C35981778
529	WETBULB FIPROTECH PRIVATE LIMITED	U29195MH2001PTC133031	C38174819
530	AEROLITE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2009PTC197208	C46031696

S. P. KUMAR
Registrar of Companies, Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following companies :—

Mumbai-400002, the 16th February 2016

No. ROC/560/FTE, 2011/1756—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies has this day been struck off the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved.

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
1	K-TEK LEVEL ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC172031	C43548056
2	PLASMA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2009PTC197923	C42403808
3	SPARROW TRADEWING PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC204197	C39180484
4	COSMOS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2009PTC197218	C44248664
5	O&O PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45209MH2011FTC224817	C35766732
6	SECURITY & TRACKING R.F.I D. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2009PTC196819	C33944349
7	VIDHI TRENDZ PRIVATE LIMITED	U17200MH2011PTC218800	C37874823

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
8	PRISHTY CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC212314	C32477648
9	UNITED SAFEBUILD PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC183462	C34776344
10	COBBLED STREET REALITY PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC217108	C33122946
11	WIZARD NETWORK SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72300MH2011PTC222883	C33301144
12	VARDHANAM FOODS PRIVATE LIMITED	U15122MH2012PTC234078	C34358606
13	VK INFRAREALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC183541	C33485517
14	WHITE STONE PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U22219MH2011PTC216611	C33125592
15	HARDIK TRENDZ PRIVATE LIMITED	U17200MH2011PTC218886	C37711413
16	SARAH INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163890	C36819027
17	LAKHAMAPUR AGROTECH INDIA PRIVATE LIMITED	U10300MH2011PTC220968	C34087098
18	TRISTAR ORGANIC PRIVATE LIMITED	U55101MH2010PTC205591	C32940769
19	TRISTAR RETAIL VENTURES PRIVATE LIMITED	U52520MH2010PTC199135	C32941445
20	AAYASA ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000MH2010PTC207921	C32791683
21	SATELLITE PNEUMATIC PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC187900	C35828904
22	SANJEEVANI LIFESPACES PRIVATE LIMITED	U45200MH2012PTC234066	C35325547
23	BEAMS HOSPITALS (BENGALURU) PRIVATE LIMITED	U93000MH2013PTC244714	C32816464
24	TRANQUIL ADVISORS & BROKERS PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC205428	C32986713
25	HABIB TRADING AND ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC121412	C36655785
26	AMUSE INDIA PRIVATE LIMITED	U51391MH2001PTC130406	C37479946
27	J. J. ISPAT PRIVATE LIMITED	U28112MH2010PTC201810	C35892231
28	HEALTH QUEST HEALTHCARE CONSULTANTS PVT.LTD.	U85195MH1993PTC071611	C33290164
29	SG PAI EQUITY RESEARCH PRIVATE LIMITED	U65990MH2004PTC146350	C33166869
30	SHALINI GUPTA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2004PTC144649	C33189648
31	SHANTIRAJ CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2003PTC143229	C33486721
32	WUSHOO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2013PTC250180	C34106062
33	PRIORI INTERACTIVE PRIVATE LIMITED	U72900MH2011PTC221209	C36885937
34	AL - AFIYAH DEVELOPERS AND REALTORS PRIVATE LIMITED	U45202MH2011PTC215162	C37447729
35	MOSIAB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U24211MH2013PTC248515	C36086114
36	ADZONKER'S STUDIO PRIVATE LIMITED	U93090MH2009PTC194195	C32962466
37	LEXSERVE INDIA PRIVATE LIMITED	U74990MH2012PTC229445	C33746744
38	AGR SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC189195	C37512209
39	NIDA PROCON PRIVATE LIMITED	U45200MH2012PTC232158	C34394924

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
40	K-SQUARE F & B PRIVATE LIMITED	U15400MH2010PTC206018	C32942070
41	NIVEDH ALUMINIUM INDIA PRIVATE LIMITED	U27310MH2012PTC231178	C33521972
42	MAXMIT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72100MH2005PTC153213	C33096280
43	RATIONAL MARINE OFFSHORE PRIVATE LIMITED	U11100MH2013PTC247000	C33389156
44	CARE PLUS MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC137096	C33106428
45	SOMESHWAR FOODS PRIVATE LIMITED	U15410MH2008PTC183892	C33109158
46	SOLARIS CLEAN PRODUCTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U40300MH2011PTC225412	C33333774
47	ANURAG BUILDING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC145533	C32995417
48	YUVANESSE ANTI-AGING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC190497	B77041135
49	WIDESPREAD MERCANTILES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC233550	C33222993
50	CATECHIZE INSTITUTE OF EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80904MH2011PTC222712	C33929183
51	GALIAKOTWALA ESTATE LTD	U74999MH1947PLC005875	C35650944
52	LEO INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED	U70100MH2011PTC214702	C35676105
53	BIRUNJ BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2011PTC218941	C33531161
54	SWAGAT INFRA-PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC181213	C35304062
55	ADITI RAYONS AND SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	U17110MH1996PTC104081	C31776750
56	ALFALAH ESTATE AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70101MH1993PTC070539	C34941351
57	GOYAL AGRO AND BOARDS PRIVATE LIMITED	U15122MH2011PTC216152	C31779168
58	CLEROICE SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72300MH2011PTC221381	C32961872
59	TRAVEL STUDIO INDIA PRIVATE LIMITED	U63040MH2011PTC219341	C35319839
60	BETTER BRANDS MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC205253	C35488584
61	PIRAMAL TRANSPORTATION PRIVATE LIMITED	U60231MH2010PTC206907	C35490820
62	HAMPI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65993MH2005PTC152203	C32988438
63	NAGPUR REALTORS PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC169555	C35221704
64	MUNICH ESTATES PRIVATE LIMITED	U70109MH2013PTC244229	C34312124
65	AJMERA WAREHOUSING COMPLEX PRIVATE LIMITED	U63020MH1996PTC098206	C35355551
66	FINESSE WORLDWIDE EXPOSITIONS PRIVATE LIMITED	U74300MH2005PTC158080	C34163006
67	NSR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC176889	C34646976
68	FABINA FASHIONS PRIVATE LIMITED	U52320MH2000PTC127940	C33730532
69	HERITAGE AIRLINES PRIVATE LIMITED	U62100MH2005PTC151746	C33596271
70	GREENAPPLE RETAIL PRIVATE LIMITED	U52324MH2013PTC250952	C35539527

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
71	RETOUCH LABS PRIVATE LIMITED	U85195MH2008PTC187650	C33759325
72	SHREE HARIOM STOCKS AND SECURITIES PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC100090	C33024381
73	FORTUNE DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC222168	C33765322
74	YAMALA TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC123328	C32717589
75	SG PAI INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED	U67190MH2004PTC144496	C33183401
76	MUKTISTAR HOTELS & DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED	U55101MH2006PTC164216	C34069542
77	KEY2ERP (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC180598	C34384842
78	QUASAR ADVISORY PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC164881	C32901175
79	CHERRYPICKER FILMS PRIVATE LIMITED	U92100MH2008PTC186118	C33975145
80	WHITBY AND BIRD (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74210MH2005PTC156815	C32981250
81	DEALAFAST EXPORTS PVT. LTD.	U99999MH1986PTC040839	C34837500
82	CHHAGANLAL SHEOKARANDAS METAL PRIVATE LIMITED	U28112MH2011PTC220654	C34603001
83	CINNAMON HEALTH PRIVATE LIMITED	U85191MH2010PTC208776	C34825034
84	INFOLOGIC CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2010PTC208149	C33215138
85	ARPIT JHINDAL BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC144817	C35260082
86	PARSWA ESTATES PVT LTD	U45200MH1984PTC034436	C35414986
87	PAYLATER FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2010PTC201466	C35427350
88	MOUNT CONDUCTORS PRIVATE LIMITED	U31300MH1995PTC092242	C33119629
89	APG ROAD AND RAIL TRANSPORTS PRIVATE LIMITED	U60231MH2010PTC208123	C35489624
90	SAILBREAK VENTURES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC233510	C32873317
91	ARNAV TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC162511	C35550938
92	BEAMS HOSPITALS (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	U93000MH2013PTC244776	C34731588
93	OPTIMED HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85100MH2012PTC227409	C36889145
94	MAXIMA HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED	U85100MH2009PTC196715	C32653560
95	AMAL BATRA ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74300MH2010PTC210648	C37173614
96	NAYE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC177838	C36471316
97	J. KUMAR EXTRA CO INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC223110	C32680720
98	IH CONTINUING EDUCATION PROVIDERS PRIVATE LIMITED	U80900MH2004PTC147543	C35887736
99	AKSHAR RASH MOTION PICTURES PRIVATE LIMITED	U92100MH2011PTC213020	C33012139
100	PRASHIKHA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24297MH2013PTC239369	C34068767

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
101	B L A RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED	U40101MH2008PTC183023	C11580313
102	BLA COAL MINING AND WASHERIES PRIVATE LIMITED	U13100MH2005PTC152081	C11581881
103	CHARISMA ENERGY PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC175841	C11475142
104	BHARAT BROADCASTING CORPORATION PRIVATE LIMITED	U92100MH2008PTC184412	C11335163
105	ASTEC DEALERS PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC206490	C35892272
106	ALLIED GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC234290	C37192200
107	RAMPS EXOTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U52397MH2007PTC172656	C36869808
108	ADITYA BIOPHARMA PRIVATE LIMITED	U24239MH2007PTC175623	C37154986
109	MANGALTEJ NIRMAN PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC091339	C37032935
110	THERMOFORMING SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED	U25203MH2012PTC235213	C35834969
111	KALAKUNJ TRADING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U51220MH1995PTC085672	C09837469
112	APHRODITE TEXTILE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U18101MH2006PTC161863	C36409167
113	MINDSQUARE CONSULTING PRIVATE LIMITED	U72200MH1996PTC100447	C36504694
114	LONZA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC202179	C62585278

S. P. KUMAR
Registrar of Companies,
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s MOJASA FRAGRANCES AND COSMETICS PRIVATE LIMITED U24244TG2004PTC044100

Hyderabad-500068, the 3rd February 2016

No. ROC-HYD-AP-TG/560(5)FTE Scheme-01/2016—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of MOJASA FRAGRANCES AND COSMETICS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

N. KRISHNAMURTHY
Registrar of Companies
Andhra Pradesh & Telangana

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following companies :—

Kochi-682021, the 10th February 2016

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2016/375— Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved:—

Sl.No.	Co.Reg.No.	Company Name
1	U67120KL2009PTC024627	KOSMOKS SECURITIES PRIVATE LIMITED
2	U51392KL2002PTC015411	RUB BED MARKETING PRIVATE LIMITED
3	U15205KL2002PTC015357	HILLVALLEY FOOD PRIVATE LIMITED

Sl.No.	Co.Reg.No.	Company Name
4	U74999KL2006PTC019611	SHAREGROWTH RESEARCH PRIVATE LIMITED
5	U51909KL2011PTC027548	EDART TRADERS PRIVATE LIMITED
6	U63040KL2001PTC014557	AFFINITY INDIA TOURS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
7	U92490KL2005PTC018613	SPASSO EVENT MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
8	U45200KL2009PTC024851	SEGURO ENGINEERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
9	U70101KL2008PTC022572	MOTTEMMAL BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
10	U74910KL2007PTC020810	LIVELY MANPOWER CONSULTANTS (KERALA) PRIVATE LIMITED
11	U51219KL2012PTC032618	GREEN CHILLY EXIM PRIVATE LIMITED
12	U25209KL2002PTC015165	FLEETROYS POLYVINYL PRIVATE LIMITED
13	U72200KL2012PTC031859	DIALABS TECH PRIVATE LIMITED
14	U80903KL2012PTC032939	CENANCLE ENGLISH TUTORIAL AND COUNSELLING IELTS CENTRE PRIVATE LIMITED
15	U31500KL2014PTC037621	MENORAH POWER PRIVATE LIMITED
16	U51432KL2004PTC016917	IMPERIAL ARCADE PRIVATE LIMITED
17	U45200KL2008PTC022280	ATREUS BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
18	U51909KL2002PTC015783	CAPE EXIM INDIA PRIVATE LIMITED
19	U45200KL2008PTC022256	ACHILLES BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
20	U24240KL2008PTC022772	AVERLIFE CONSUMER PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
21	U74910KL2002PTC015470	EBENEZER CENTRE FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
22	U30006KL2004PTC017687	TOMSON INFOCOM PRIVATE LIMITED
23	U74300KL2012PTC031363	IDEX MEDIA PRIVATE LIMITED
24	U74140KL2013PTC034141	DEJS Technologies Private Limited
25	U72900KL2014PTC037142	DONN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
26	U50500KL2011PTC028951	CRR AND PNG EXPORTERS AND IMPORTERS PRIVATE LIMITED
27	U24229KL2013PTC034842	LND SEALANTS PRIVATE LIMITED
28	U72200KL2015PTC038138	LIMITLEZ ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
29	U72300KL2006PTC019268	KEYEM GRAPHIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
30	U72200KL2013PTC033045	VOLTROID SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
31	U80220KL2011PTC029514	CRR AND PNG INSTITUTIONS PRIVATE LIMITED
32	U36911KL2013PTC035359	ALFALA GOLD PALACE PRIVATE LIMITED
33	U36911KL2005PTC018809	BHASKAR DEVJI GOLD AND DIAMOND JEWELLERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
34	U52590KL2014PTC036213	STYLESPEC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
35	U72200KL2008PTC022175	ALVITH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
36	U72200KL2013PTC034203	iCONIZE Multimedia Production Company Private Limited
37	U74900KL2011PTC027720	NELLI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

Sl.No.	Co.Reg.No.	Company Name
38	U72900KL2015PTC038046	SABRO SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
39	U51900KL2008PTC023289	THAFAR IMPEX AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
40	U51109KL2003PTC016071	S K TRADERS PRIVATE LIMITED
41	U45200KL2013PTC034111	SWAPNATHEERAM BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
42	U28995KL1990PTC005725	NADAVARAMBA KRISHNA BELL METAL CRAFT PVT LTD
43	U33112KL1999PTC012726	SCHVETH DIATECH PRIVATE LIMITED
44	U72200KL2012PTC032711	Nedin Webexim Private Limited
45	U01211KL2006PTC020105	PAPAS DAIRY PRIVATE LIMITED
46	U92191KL2013PTC035593	WAYANAD ADVENTURE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
47	U72200KL2011PTC028584	SKSL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
48	U45309KL2010PTC026741	DREIZACK INDIA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
49	U45201KL2002PTC015497	TOPLAND BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
50	U45200KL2013PTC034275	ASHSUN INFRASTRUCTURE AND PROJECTS PRIVATE LIMITED
51	U72200KL2011PTC027793	FEZTO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
52	U45200KL2009PLC025042	INDIACAPITOL PROJECTS & PROPERTIES LIMITED
53	U70100KL2011PTC028273	ASKT REAL ESTATE AND TOURISM PRIVATE LIMITED
54	U72200KL2013PTC035562	ZYBAC INFOTECH PRIVATE LIMITED
55	U72200KL2012PTC031124	YOUY SOFTWARE PRIVATE LIMITED
56	U52321KL2006PTC019567	EDAPPAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
57	U51909KL2003PTC016046	FIRE SYSTEMS KERALA PRIVATE LIMITED
58	U65992KL2005PTC018220	BANISTER CHITS PRIVATE LIMITED
59	U74300KL1995PTC008614	GAZE COMMUNICATIONS PVT LTD
60	U92140KL2013PTC033917	INDIRA CREATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
61	U92113KL1993PTC007249	FARSIGHT MEDIA PRIVATE LIMITED
62	U14200KL2012PTC032032	ANR GRANITES PRIVATE LIMITED
63	U72200KL2012PTC031804	CONSULTTECH TECHNOLOGY INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
64	U01100KL2013PTC034250	MAZARA INDIA PRIVATE LIMITED
65	U24230KL2009PTC024687	TACHYONS PHARMA PRIVATE LIMITED
66	U22212KL2011PTC027867	VIS MEDIA PRIVATE LIMITED
67	U72200KL1999PTC012947	CENTRON INFOTECH PRIVATE LIMITED
68	U72200KL2004PTC017631	ARGENT DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
69	U72200KL2013PTC034809	OneMobius TechSolutions Private Limited
70	U51909KL2003PTC016685	GROUP 3 TRADING PRIVATE LIMITED
71	U63040KL2007PTC021108	ECO MALABAR TOURISM PRIVATE LIMITED
72	U63040KL2014PTC037530	NIRVANA LEISURE PRIVATE LIMITED
73	U45200KL2013PTC033852	RDV PROJECTS PRIVATE LIMITED

Sl.No.	Co.Reg.No.	Company Name
74	U74140KL2008PTC023494	VINGO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
75	U63020KL2008PTC022426	SEA BREEZE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
76	U51909KL2008PTC022689	AG NANOTECH IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
77	U01119KL2005PTC018108	NEDUMKANDAM PLANTATIONS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
78	U45203KL2008PTC021844	BLUESKY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
79	U74140KL2008PTC022640	SARVAJITH WEALTH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
80	U29220KL2012PTC032394	ORBIT AUTOMATION AND MECHATRONICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
81	U45201KL2012PTC031674	CELEBRITY SENIOR CASTLE PRIVATE LIMITED
82	U45303KL2000PTC013856	POWERERECT ELECTRICALS AND STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
83	U27100KL2009PTC025196	ZOLTAN METALS & ALLOYS PRIVATE LIMITED
84	U32102KL1979PTC003120	P E F CAPACITORS PVT LTD
85	U55101KL2013PTC035117	ELETTARIA RESORTS AND HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
86	U74999KL2014PTC035970	CHOICE METALCOATS PRIVATE LIMITED
87	U67190KL2007PTC020513	AB DEBT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
88	U72200KL2008PTC022419	SELSDON INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
89	U70100KL2010PTC026070	OOGLE BUILDERS & PROPERTIES PRIVATE LIMITED

A. SEHAR PONRAJ
Registrar of Companies, Kerala

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in